



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 16] नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 17—अप्रैल 23, 2010 (चैत्र 27, 1932)

No. 16] NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 17—APRIL 23, 2010 (CHAITRA 27, 1932)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 2

[PART I—SECTION 2]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]

[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Govt. Officers issued by the Ministries of the Govt. of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राज्य सभा सचिवालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 26 मार्च 2010

सं. आरएस/1/2010/19-कार्मिक--राज्य सभा के माननीय सभापति ने भारत सरकार के अवकाशप्राप्त सचिव (विधिक) श्री के.डी.सिंह, को 26 मार्च, 2010 के पूर्वाह्न से भारत सरकार के सचिव के वेतनमान अर्थात् 80,000 रुपए (नियत) में न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968 की धारा 3 के अधीन गठित समिति के सचिव के रूप में पुनर्नियोजन के आधार पर नियुक्त किया है। उनकी नियुक्ति समिति के कार्यकाल के साथ समाप्त हो जाएगी और आगे राज्य सभा के माननीय सभापति के विवेकाधीन होगी।

पी. गोपालकृष्णन, अपर सचिव

सं. आरएस/1/2010/20-कार्मिक--राज्य सभा के माननीय सभापति ने भारत के उच्चतम न्यायालय के अवकाशप्राप्त रजिस्ट्रार श्री एच.एस. कपूर, को 26 मार्च, 2010 के पूर्वाह्न से भारत सरकार के सचिव के वेतनमान 67,000--79,000 रुपए (एचएजी) में न्यायाधीश (जांच)

अधिनियम, 1968 की धारा 3 के अधीन गठित समिति के रजिस्ट्रार के रूप में पुनर्नियोजन के आधार पर नियुक्त किया है। उनकी नियुक्ति समिति के कार्यकाल के साथ समाप्त हो जाएगी और आगे राज्य सभा के माननीय सभापति के विवेकाधीन होगी।

पी. गोपालकृष्णन, अपर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 30 मार्च 2010

सं. आरएस. 3/5/2010/22-कार्मिक--राज्य सभा के माननीय सभापति के राज्य सभा सचिवालय में कनिष्ठ संसदीय भाषान्तरकार श्री राणा धीरेन्द्र प्रताप यादव को 30 मार्च, 2010 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक इस सचिवालय में 15,600--39,100 रु. के वेतन बैंड-3 + 6,600/- रु. के ग्रेड वेतन और नियमों के अधीन स्वीकार्य सामान्य भत्तों के साथ संसदीय भाषान्तरकार के ग्रेड में नियमित आधार पर कार्य करने के लिए नियुक्त किया है।

एस, रंगराजन, उप निदेशक

दिनांक 1 अप्रैल 2010

सं. आरएस.3/1/1/2010/25-कार्मिक--श्री विजय प्रकाश वशिष्ठ, जिन्हें पहले दिनांक 30 दिसम्बर, 2009 की अधिसूचना सं. आरएस, 3/1/1/2010/105-कार्मिक द्वारा स्वस्थाने आधार पर राज्य सभा सचिवालय में विधायी/समिति/न्यायाचार/अधिशाली अधिकारी के रूप में स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त किया गया था, को अब 1 अप्रैल, 2010 के पूर्वाह्न से उक्त ग्रेड में नियमित रिक्ति में समायोजित किया गया है।

2. उपर्युक्त नियुक्ति रिट याचिका सं. 3025/88 के अंतिम निपटारे के समय दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेशों के अधधीन होगी।

एस. रंगराजन, उप निदेशक

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 31 मार्च 2010

सं. पीएफ. 1328-आर(3)/जीएन-6394/एएन-1/2010--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर श्री वेद प्रकाश शर्मा-II, संयुक्त निदेशक (अनुवाद) 31.03.2010 के अपराह्न से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

ए. लुइस मार्टिन, संयुक्त सचिव

अन्तरिक्ष विभाग

बेंगलूर-560231, दिनांक 16 फरवरी 2010

सं. 6/1(1)/2010-1--राष्ट्रपति, अन्तरिक्ष विभाग के अन्तरिक्ष उपयोग केन्द्र, अहमदाबाद में निम्नलिखित वैज्ञानिकों/इंजीनियरों को प्रत्येक के सामने दिए गए पदों पर स्थानापन्न रूप में दिनांक 01.07.2009 के पूर्वाह्न से आगामी आदेश तक पदोन्नति पर नियुक्त करते हैं।

क्रम सं.	नाम	पद जिससे पदोन्नति की गई	पद जिस पर पदोन्नति की गई
श्री/श्रीमती/कु.			
1.	संतनु चौधरी	वैज्ञा./इंजीनियर-जी	वैज्ञा./इंजीनियर-एच
2.	एन.के. सवसानी	वैज्ञा./इंजीनियर-एस.एफ	वैज्ञा./इंजीनियर-एस.जी
3.	राकेश कुमार भान	वैज्ञा./इंजीनियर-एसडी	वैज्ञा./इंजीनियर-एस.ई
4.	अखिलेश शर्मा	वैज्ञा./इंजीनियर-एसडी	वैज्ञा./इंजीनियर-एस.ई
5.	डी.के. धोदी	वैज्ञा./इंजीनियर-एसडी	वैज्ञा./इंजीनियर-एस.ई
6.	रति सिंह	वैज्ञा./इंजीनियर-एसडी	वैज्ञा./इंजीनियर-एस.ई
7.	सुदेश कुमार जैन	वैज्ञा./इंजीनियर-एसडी	वैज्ञा./इंजीनियर-एस.ई
8.	आर.एल. शाह	वैज्ञा./इंजीनियर-एसडी	वैज्ञा./इंजीनियर-एस.ई
9.	शिल्पी सोनी	वैज्ञा./इंजीनियर-एसडी	वैज्ञा./इंजीनियर-एस.ई
10.	सौमी. एस	वैज्ञा./इंजीनियर-एसडी	वैज्ञा./इंजीनियर-एस.ई
11.	के.एन. बाबु	वैज्ञा./इंजीनियर-एसडी	वैज्ञा./इंजीनियर-एस.ई
12.	डॉ. रणधीर सिंह	वैज्ञा./इंजीनियर-एसडी	वैज्ञा./इंजीनियर-एस.ई
13.	विनय कुमार एस.	वैज्ञा./इंजीनियर-एसडी	वैज्ञा./इंजीनियर-एस.ई
14.	राहुल देव	वैज्ञा./इंजीनियर-एससी	वैज्ञा./इंजीनियर-एस.डी

मनोहर एल. वाणियर, उप सचिव

सं. 6/1(1)/2010-1--राष्ट्रपति, अन्तरिक्ष विभाग के अन्तरिक्ष उपयोग केन्द्र, अहमदाबाद में निम्नलिखित वैज्ञानिकों/इंजीनियरों-एस.जी. को वैज्ञानिकों/इंजीनियरों-जी. के पद पर स्थानापन्न रूप में दिनांक 04.08.2009 के पूर्वाह्न से आगामी आदेश तक नियुक्त करते हैं:--

श्री/श्रीमती/कु.

1. के.एस. पारीख

2. डॉ. ए.के. शुक्ला

मनोहर एल. वाणियर, उप सचिव

सं. 6/1(1)/2010-1--राष्ट्रपति, अन्तरिक्ष विभाग के अन्तरिक्ष उपयोग केन्द्र, अहमदाबाद में श्री एल.बी. कुशवाहा, वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.जी. को वैज्ञानिक/इंजीनियर-जी. के पद पर स्थानापन्न रूप में दिनांक 14.09.2009 के पूर्वाह्न से आगामी आदेश तक पदोन्नति पर नियुक्त करते हैं।

मनोहर एल. वाणियर, उप सचिव

सं. 6/1(1)/2010-1--राष्ट्रपति, अन्तरिक्ष विभाग के अन्तरिक्ष उपयोग केन्द्र, अहमदाबाद में श्री संगीत कुमार मिश्रा को प्रशासन अधिकारी के पद पर अस्थायी रूप में दिनांक 12.08.2009 के पूर्वाह्न से आगामी आदेश तक नियुक्त करते हैं।

मनोहर एल. वाणियर, उप सचिव

सं. 6/1(1)/2010-1--राष्ट्रपति, अन्तरिक्ष विभाग के अन्तरिक्ष उपयोग केन्द्र, अहमदाबाद में श्री एस. वेंकटेश्वर राव को वरिष्ठ कंट्रोलिंग प्रबन्धक के पद पर स्थानापन्न रूप में दिनांक 14.07.2009 के पूर्वाह्न से आगामी आदेश तक पदोन्नति पर नियुक्त करते हैं।

मनोहर एल. वाणियर, उप सचिव

सं. 6/1(2)/2010-1--राष्ट्रपति, अन्तरिक्ष विभाग के अन्तरिक्ष उपयोग केन्द्र, अहमदाबाद में निम्नलिखित वैज्ञानिकों/इंजीनियरों ने अपने निवर्तन आयु प्राप्ति के परिणामस्वरूप प्रत्येक के सामने दिये गये पदों और दी गई तारीखों के अपराह्न से कार्यभार छोड़ दिया है।

क्र. सं.	नाम	पद	कार्यमुक्ति की तिथि
1	2	3	4
श्री/श्रीमती/कु.			
1.	डॉ. वी.के. अग्रवाल	वैज्ञा./इंजीनियर-जी	31.07.2009
2.	विट्ठल लक्ष्मण घरपुरे	वैज्ञा./इंजीनियर-एस.एफ	31.07.2009
3.	एस.वेंकटेश्वर राव	वरिष्ठ कंट्रोलिंग प्रबन्धक	31.07.2009
4.	रमेश चन्द्र	वैज्ञा./इंजीनियर-एस.एफ	31.08.2009
5.	डॉ. शशि भूषण शर्मा	विशिष्ट वैज्ञानिक	30.09.2009
6.	पी.एल. कुलकर्णी	वैज्ञा./इंजीनियर-एच	30.09.2009

1	2	3	4
	श्री/श्रीमती/कु.		
7.	बी.बी. परांजपे	वैज्ञा./इंजीनियर-एसजी	30.09.2009
8.	चिंतन एम. भट्ट	वैज्ञा./इंजीनियर-एस.एफ	30.09.2009
9.	आर.एल. शाह	वैज्ञा./इंजीनियर-एस.ई	30.09.2009
10.	बी.के. गर्ग	वशिष्ट वैज्ञानिक	30.11.2009
11.	डॉ. डी.एन. होल्ला	वैज्ञा./इंजीनियर-एस.जी.	30.11.2009

मनोहर एल. वाणियर, उप सचिव

सं. 6/1(2)/2010-I--राष्ट्रपति, अन्तरिक्ष विभाग के अन्तरिक्ष उपयोग केन्द्र, अहमदाबाद में निम्नलिखित वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.सी. का सेवा से त्यागपत्र प्रत्येक के सामने दी गयी तारीखों के अपराह्न से स्वीकार करते हैं:--

क्र. सं.	नाम	कार्यमुक्ति की तिथि
	श्री/श्रीमती/कु.	
1.	सुनिता खिलार	09.10.2009
2.	सिद्धार्थ महोत्रा	04.08.2008

मनोहर एल.वाणियर, उप सचिव

दिनांक 19 मार्च 2010

सं. 11/1(1)/2010-I--राष्ट्रपति, अन्तरिक्ष विभाग के इसरो कार्यालय, शाखा सचिवालय, नई दिल्ली में श्री के. पट्याभि राम राजु को लेखा अधिकारी के पद पर स्थानापन्न रूप में दिनांक 10.08.2009 के पूर्वाह्न से आगामी आदेश तक पदोन्नति पर नियुक्त करते हैं।

मनोहर एल. वाणियर, उप सचिव

सं. 11/1(1)/2010-I--राष्ट्रपति, अन्तरिक्ष विभाग, बेंगलूर में श्री ए. के. सोमशेखरन को उप सचिव के पद पर स्थानापन्न रूप में दिनांक 10.08.2009 के पूर्वाह्न से आगामी आदेश तक नियुक्त करते हैं।

मनोहर एल. वाणियर, उप सचिव

योजना आयोग

नई दिल्ली, दिनांक 09 मार्च 2010

सं. ए-12025/01/2005-प्रशा.-II--योजना आयोग की दिनांक 18 सितम्बर, 2009 की समसंख्यक अधिसूचना के क्रम में श्रीमती सुरेखा सोनी, सांख्यिकीय अन्वेषक, राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो, गृह मंत्रालय, की प्रतिनियुक्ति की अवधि, एतद्वारा योजना आयोग में 15,600--39,100/- रुपए के वेतन बैंड-3 में अनुसंधान

अधिकारी के पद पर दिनांक 11.09.2010 तक अथवा पद के नियमित आधार पर भरे जाने तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, बढ़ाई जाती है।

2. इस तदर्थ नियुक्ति से श्रीमती सुरेखा सोनी को अनुसंधान अधिकारी के ग्रेड में नियमित नियुक्ति हेतु दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा और अनुसंधान अधिकारी के ग्रेड में तदर्थ आधार पर उनके द्वारा की गई सेवाओं की गणना अनुसंधान अधिकारी के ग्रेड में न तो वरिष्ठता हेतु और न ही अगले उच्चतर ग्रेड में पदोन्नति हेतु पात्रता के लिए ही की जाएगी।

एन. के. शर्मा, अवर सचिव

भारत निर्वाचन आयोग सचिवालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 31 मार्च 2010

सं. ए-19/जी-ए/86--पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सन्दर्भ सं. सी-37012/1/2010 सतर्कता दिनांक 17.03.2010 के अनुसरण में उप-निर्वाचन आयुक्त श्री आर. बालाकृष्णन्, आई.ए.एस. (उड़ीसा : 84), को एतद्वारा भारत निर्वाचन आयोग सचिवालय से दिनांक 31.03.2010 को अपराह्न से कार्यमुक्त किया जाता है, ताकि वे चेन्नई पेट्रोलियम निगम लिमिटेड (सी.पी.सी.एल.), चेन्नई में मुख्य सतर्कता अधिकारी (सी.वी.ओ.) के रूप में पदभार ग्रहण कर सकें।

नरेन्द्र ना. बुटेलिया, अवर सचिव

विधि एवं न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

नई दिल्ली-110001, दिनांक 23 मार्च 2010

सं. ए-32014/2/2005-प्रशा.-I (वि.वि.)--राष्ट्रपति, विधि और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग में निजी सचिव श्री मोहम्मद हुसैन की प्रतिनियुक्ति आधार पर गोपनीय अधीक्षक के पद पर नियुक्ति की अवधि को दिनांक 30 मार्च, 2010 की पूर्वाह्न से और आगे एक वर्ष के लिए (पांचवा वर्ष) अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, रुपए 15,600--39,100/- के वेतन बैंड + रुपए 5,400/- के ग्रेड वेतन में, बढ़ाते हैं।

2. श्री मोहम्मद हुसैन किसी प्रकार का प्रतिनियुक्ति (ड्यूटी) भत्ता प्राप्त करने के हकदार नहीं होंगे।

एम. आर. बीर, उप सचिव

विधि कार्य विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 1 अप्रैल 2010

सं. ए-12023/31/1997-प्रशा.-III (वि.का.)--आयकर अपील अधिकरण सदस्य (भर्ती और सेवा की शर्तें) नियमावली, 1963 के नियम 11 में यथा प्रदत्त अधिवर्षिता की आयु होने पर, श्री धर्मराज सिंह, न्यायिक सदस्य, आयकर अपील अधिकरण, दिनांक 15 मार्च, 2010 के अपराह्न से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

एम. के. शर्मा, संयुक्त सचिव एवं विधि सलाहकार

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 6 अप्रैल 2010

सं. आई-14011/6/2009-आई.पी.एस.-1(1)--भारतीय पुलिस सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 के विनियम 7 के उप-विनियम (3) में निहित उपबंधों का प्रयोग करते हुए संघ लोक सेवा आयोग ने दिनांक 25.03.2010 को चयन समिति की दिनांक 31.12.2009 की बैठक में इसके द्वारा बनाई गई 2009 की उस चयन सूची को अनुमोदित कर दिया है जिसमें भारतीय पुलिस सेवा के कर्नाटक संवर्ग में वर्ष 2009 में छः मौलिक रिक्तियों को भरे जाने हेतु कर्नाटक पुलिस सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों का नाम शामिल किया गया है :--

चयन सूची-2009

क्रम सं	अधिकारियों के नाम	जन्म तिथि
(सर्वश्री)		
1.	डॉ. पवार टी. डी.	01.06.1959
2.	अग्निगोरी मंजूनाथ	15.05.1960
3.	नायक आर. एच.	24.04.1958
4.	बी. आर. रविकान्धे गौडा	08.04.1966
5.	आर. दिलीप	25.09.1970
6.	एस. एन. सिद्धारामप्पा	14.02.1964

2. उपर्युक्त चयन सूची माननीय केन्द्रीय प्रशासनिक प्राधिकरण के बंगलौर बैच में विचाराधीन ओ.ए. सं. 96/2010 के परिणाम के अध्वधीन होगी।

ओ. एस. अशोक, अवर सचिव

सं. आई-14011/6/2009-आई.पी.एस.-1(II)--राष्ट्रपति, भारतीय पुलिस सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 के विनियम 9 के उप-विनियम (1) के साथ पठित भारतीय पुलिस सेवा (भर्ती) विनियम, 1954 के विनियम 9 के उप-विनियम (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कर्नाटक राज्य पुलिस सेवा के निम्नलिखित सदस्यों को भारतीय पुलिस सेवा में परीक्षा पर नियुक्त करते हैं तथा उन्हें भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग) विनियम, 1954 के विनियम 5 के उप-विनियम (1) के अन्तर्गत कर्नाटक संवर्ग प्रदान करते हैं :--

चयन सूची-2009

क्रम सं	अधिकारियों के नाम	जन्म तिथि
1	2	3
(सर्वश्री)		
1.	डॉ. पवार टी. डी.	01.06.1959
2.	अग्निगोरी मंजूनाथ	15.05.1960
3.	नायक आर. एच.	24.04.1958

1	2	3
(सर्वश्री)		
4.	बी. आर. रविकान्धे गौडा	08.04.1966
5.	आर. दिलीप	25.09.1970
6.	एस. एन. सिद्धारामप्पा	14.02.1964

2. उपर्युक्त नियुक्तियां माननीय केन्द्रीय प्रशासनिक प्राधिकरण के बंगलौर बैच में विचाराधीन ओ.ए. सं. 96/2010 के परिणाम के अध्वधीन होंगी।

3. यह नियुक्तियां अधिसूचना के जारी होने की तिथि से प्रभावी होंगी।

ओ. एस. अशोक, अवर सचिव

राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो

नई दिल्ली-110066, दिनांक मार्च 2010

सं. 34/1/2010-प्रशा.-1 (ए)/रा.अ.रि. ब्यूरो--राष्ट्रपति, सहर्ष भारतीय पुलिस सेवा (उड़ीसा : 89) की श्रीमती बी. राधिका को राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (रा.अ.रि. ब्यूरो) में उप निदेशक (उप महानिरीक्षक) के पद पर वेतन बैंड (पीबी-4) रुपए 37,400--67,000/- + 8,900/- के ग्रेड पे के साथ उनके पद का कार्यभार ग्रहण करने की तिथि या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो पांच वर्षों की अवधि के लिए नियुक्त करते हैं।

एन. के. सिंह, सहायक निदेशक (प्रशा.)

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 26 मार्च 2010

सं. 13017/44/2007-अ.भा.से. (1)--केन्द्र सरकार, भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 6(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार तथा गृह मंत्रालय की सहमति से, श्री हरि कृष्ण पालीवाल, आई.ए.एस. (यू. पी. : 81) उत्तर प्रदेश के भा.प्र.से. संवर्ग से ए.जी.एम.यू.टी. के भा.प्र.से. संवर्ग में अंतर संवर्ग प्रतिनियुक्ति को 28.02.2010 से आगे तीन वर्ष की अगली अवधि अर्थात् 28.02.2013 तक के लिए अथवा अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, बढ़ाने हेतु अनुमोदन प्रदान करती हैं।

आर. के. गुप्ता, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 26 मार्च 2010

सं. 14015/17/2009-अ.भा.से. (1)-क--भारतीय प्रशासनिक सेवा (चयन द्वारा नियुक्ति) विनियमावली, 1997 के विनियम 8 के साथ पठित भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियमावली, 1954 के नियम 8(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति चयन सूची वर्ष 2009 के लिए राज्य सरकार के परामर्श से उपर्युक्त विनियमावली के विनियम 3 के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित गैर राज्य सिविल सेवा श्रेणी के अधीन उड़ीसा के भारतीय प्रशासनिक सेवा संवर्ग में पदोन्नति कोटा

रिक्तियों को भरने के लिए विनियम 5 के अंतर्गत 21.12.2009 को तैयार की गई और विनियम 7(2) के अधीन 05.02.2010 को अनुमोदित की गई निम्नलिखित नामों वाली उड़ीसा के गैर-राज्य सिविल सेवा अधिकारियों की चयन सूची को अधिसूचित करती है :--

चयन सूची-2009

क्रम सं	अधिकारियों के नाम	जन्म तिथि
	(सर्वश्री)	
1.	अनिल कुमार सामल	15.09.1961
2.	नित्यानन्द पलाई	15.03.1956
3.	श्रीकान्त पुस्ती	01.07.1964

एस. एस. शुक्ला, अवर सचिव

दिनांक 5 अप्रैल 2010

सं. 14015/24/2010-अ.भा.से. (1)-क--भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियमावली, 1955 के विनियम 9(1) के साथ पठित भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियमावली, 1954 के नियम 8(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति चयन सूची वर्ष 2009 के दौरान राज्य सरकार के परामर्श से उपर्युक्त विनियमावली के विनियम 5(1) के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित राज्य सिविल सेवा श्रेणी के अंतर्गत पश्चिमी बंगाल के भारतीय प्रशासनिक सेवा संवर्ग में पदोन्नति कोट रिक्तियों को भरने के लिए विनियम 5(5) के अंतर्गत दिनांक 27 नवम्बर, 2009 को तैयार की गई तथा विनियम 7(2) के अंतर्गत दिनांक 5 मार्च, 2010 को अनुमोदित की गई पश्चिमी बंगाल संवर्ग के राज्य सिविल सेवा के अधिकारियों के निम्नलिखित नामों वाली चयन सूची को अधिसूचित करती है :--

चयन सूची-2009

क्रम सं	अधिकारी का नाम	जन्म तिथि
	(सर्वश्री)	
1.	अशोक भट्टाचार्य	27.01.1955
2.	नन्दा दुलाल भक्त (अन्य पिछड़ा वर्ग)	14.04.1956
3.	श्रीमती मलाबिका झा	15.05.1956
4.	अख्तर करीम	15.01.1956
5.	खलेन्द्र मोछारी (अनुसूचित जनजाति)	01.03.1957
6.	सुभासिस मोइत्रा	12.12.1957
7.	रूपेन्द्र चौधरी	24.04.1958
8.	अरूप कुमार साहा	21.01.1958

2. चयन सूची में उपर्युक्त अधिकारियों का नाम शामिल किया जाना बंगलौर स्थित माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय के समक्ष लम्बित रिट याचिका सं. 39137/2009 तथा 32-34/2010 एवं 215-222/2010 तथा बैच के परिणाम के अध्वधीन होगा।

एस. एस. शुक्ला, अवर सचिव

सं. 14015/24/2009-अ.भा.से. (1)-ख--भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियमावली, 1955 के विनियम 9(1) तथा भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवीक्षा) नियमावली, 1954 के नियम 3 के साथ पठित भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियमावली, 1954 के नियम 8(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति, पश्चिमी बंगाल राज्य सिविल सेवा, के निम्नलिखित सदस्यों को उपर्युक्त विनियमावली के विनियम 5(1) के अंतर्गत वर्ष 2009 की चयन सूची के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित रिक्त पदों पर भारतीय प्रशासनिक सेवा में परिवीक्षा पर अगले आदेश तक नियुक्त करते हैं तथा उनको भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 5(1) के अंतर्गत भारतीय प्रशासनिक सेवा के पश्चिमी बंगाल संवर्ग में आबंटित करते हैं :--

चयन सूची-2009

क्र.सं. अधिकारी का नाम	जन्म तिथि
सर्वश्री	
1. अशोक भट्टाचार्य	27.01.1955
2. नन्दा दुलाल भक्त (अन्य पिछड़ा वर्ग)	14.04.1956
3. श्रीमती मलाबिका झा	15.05.1956
4. अख्तर करीम	15.01.1956
5. खलेन्द्र मोछारी (अनुसूचित जनजाति)	01.03.1957
6. सुभासिस मोइत्रा	12.12.1957
7. रूपेन्द्र चौधरी	24.04.1958
8. अरूप कुमार साहा	21.01.1958

2. उपर्युक्त चयन सूची में उपर्युक्त अधिकारियों का शामिल किया जाना माननीय उच्च न्यायालय, कर्नाटक, बेंगलूर के समक्ष रिट याचिका सं.1803-1806/2010(एस-के.प्र.अ.) और बैच के परिणाम के अध्वधीन होगा।

एस. एस. शुक्ला, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 19 मार्च 2010

सं. ए.32013/2/2009-प्रशा.1--राष्ट्रपति इस विभाग के दिनांक 25 अगस्त, 2009 के कार्यालय ज्ञापन सं. 5/16/2007-सी.एस. I के अनुसार वर्ष 2003 हेतु केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड-I अधिकारियों की चयन सूची में उनका नाम शामिल किए जाने के परिणामस्वरूप, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के निम्नलिखित अवर सचिवों को प्रत्येक के सामने दर्शाई गई तारीख से नियमित आधार पर नियुक्त करते हैं :--

क्र. अधिकारी का नाम	नियमित नियुक्ति की तारीख
1. श्री जगन लाल (31.03.2007 को सेवानिवृत्त) अवर सचिव (चयन सूची : 2003) (सीएसएल नं. 4354)	01.07.2003
2. श्रीमती विनोद बाला जिन्दल (प्रतिनियुक्ति पर) अवर सचिव (चयन सूची : 2003) (सीएसएल नं. 4366)	01.07.2003

हरीश चन्द्र, अवर सचिव

विदेश मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 6 अगस्त 2009

सं. क्यू/जीए/576/2/2008--भारत सरकार ने निम्नलिखित मिशन खोला है:--

मिशन का नाम	खोलने की तारीख/मास/वर्ष
भारतीय दूतावास, नियामे (निगर)	01 मई 2009

2. भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों, सभी राज्य सरकारों तथा सभी संघ शासनों के प्रशासनों से अनुरोध है कि उपर्युक्त मिशन/केन्द्र के साथ पत्राचार के लिए "द्वारा डिप्लोमेटिक बैग अनुभाग, विदेश मंत्रालय, साऊथ ब्लॉक, नई दिल्ली" को संबोधित करें।

आलोक रंजन झा, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 18 मार्च 2010

सं. 04/पीबी-1/2010--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त होने पर भारतीय विदेश सेवा (ख) के सामान्य संवर्ग के एकीकृत संवर्ग II व III के अधिकारी श्री आर. के. गुप्ता (जन्मतिथि 14.02.1950) 28.02.2010 (अपराह्न) को सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

एम. बी. वर्मा,
प्रशासनिक अधिकारी (पीबी-1 व III)

सं. 05/पीबी-III/2010--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त होने पर भारतीय विदेश सेवा (ख) के आशुलिपिक संवर्ग के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव संवर्ग के अधिकारी श्री जी.आर. पोटी (जन्मतिथि 02.02.1950) 28.02.2010 (अपराह्न) को सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

एम. बी. वर्मा,
प्रशासनिक अधिकारी (पीबी-1 व III)

कार्यालय उप-न्याचार प्रमुख (एफ)

नई दिल्ली, दिनांक 29 मार्च 2010

सं. डी-III/460/सीएफ-8/2010--भारत के राष्ट्रपति ने श्री निकोलाई एलेक्सैन्ड्रोविच लिस्टोपादोव के रूसी परिसंघ के चेन्नई में प्रधान कौंसल के रूप में नियुक्ति को तत्काल प्रभाव से मान्यता दे दी है।

श्री निकोलाई एलेक्सैन्ड्रोविच लिस्टोपादोव का कौंसली क्षेत्राधिकार तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश राज्य एवं केन्द्र शासित प्रदेश पुदुचेरी होगा।

प्रकाश चन्द, उप न्याचार प्रमुख (एफ)

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 17 मार्च 2010

सं. 15/2010 (फा. सं. ए-32014/4/2009-प्रशा. 1क)--व्यय विभाग (संवर्ग प्रशासनिक अनुभाग) के दिनांक 03.03.2010 के कार्यालय ज्ञापन सं. ए-32014/4/2007-सीएस के अनुसरण में, राष्ट्रपति,

निम्नलिखित अधिकारियों की प्रधान निजी सचिव के पद पर तदर्थ नियुक्ति को दिनांक 30.06.2010 तक की अवधि के लिए अथवा नियमित प्रधान निजी सचिव के उपलब्ध होने तक अथवा अधिवर्षिता प्राप्त होने की तारीख तक अथवा अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, आगे बढ़ाते हैं:--

सर्वश्री/श्रीमती

1. एस.के. गुप्ता
2. के.एन. शर्मा
3. आर.के. वर्मा
4. कृष्णा कुमारी

आनन्द उपाध्याय, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 19 फरवरी 2010

सं. 19 (फा.सं. ए.19013/05/2010-प्रशा.-1)--राष्ट्रपति, श्री नय्यर अख्तर, सहायक निर्माण प्रबंधक, बैंक नोट मुद्रणालय, देवास को इस विभाग के केन्द्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो में 6,600/- रुपये के ग्रेड वेतन सहित वेतन बैंड-3 के 15,600--39,100/- रुपये के वेतनमान में दिनांक 01.02.2010 (पूर्वाह्न) से वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी के रूप में नियुक्त करते हैं।

2. श्री नय्यर अख्तर की वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी के रूप में अस्थायी आधार पर दो साल की अवधि के लिए प्रारंभिक रूप से नियुक्ति होगी और इस अवधि के दौरान वे परिवीक्षा पर होंगे जिसे सक्षम प्राधिकारी के विवेकाधिकार से बढ़ाया जा सकता है।

वी. श्रीकुमार, अवर सचिव

सं. 20 (फा.सं. ए. 50/150/2008-प्रशा.-1)--इस विभाग की पूर्व अधिसूचना सं. 2009 की 94 और 2009 की 98 के अनुक्रम में, राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय सेवा के वित्त संवर्ग के निम्नलिखित सहायकों को दिनांक 30.06.2010 तक की अवधि के लिए अथवा नियमित अनुभाग अधिकारियों के उपलब्ध होने तक, इनमें से जो पहले हो, राजस्व विभाग में अनुभाग अधिकारी (तदर्थ) के रूप में नियुक्त करते हैं:--

क्रम सं.	नाम
1	2
सर्वश्री	
1.	अभिजीत प्रसाद
2.	अशोक कुमार मिन्हास
3.	अशोक कुमार
4.	बिद्या नंद लाल
5.	बिमला शर्मा (श्रीमती)
6.	सी. के. चौपड़ा (श्रीमती)

1	2
	सर्वश्री
7.	सी. पी. सक्सेना
8.	एच. के. चौधरी
9.	जगदीश कुमार
10.	के. बी. प्रताप
11.	कुमुद कपूर (श्रीमती)
12.	एम. एल. शर्मा
13.	एम. एस. कैथ
14.	मानवेन्द्र प्रताप
15.	मंजीत एन. पी. एस. बेदी
16.	मंजु चन्द्रा (श्रीमती)
17.	मंजुला शारदा (श्रीमती)
18.	एन. सी. इसरानी
19.	एन. के. सिन्हा
20.	एन. वी. चार
21.	नरेश बदान (श्रीमती)
22.	पी. के. शर्मा
23.	आर. आर. गुप्ता
24.	रीता लारोइया (श्रीमती)
25.	एस. सी. शर्मा
26.	एस. एन. बनर्जी
27.	एस. एस. निर्वाण
28.	संतोष अरोड़ा
29.	सावित्री प्रताप (श्रीमती)
30.	सुरेश यादव
31.	उमा खट्टर (श्रीमती)
32.	वी. के. अटवाल

2. तदर्थ नियुक्ति व्यक्तियों को अनिश्चित रूप से ग्रेड में बने रहने अथवा नियमित नियुक्ति के लिए अनुभाग अधिकारियों की चयन सूची में शामिल करने अथवा केन्द्रीय सचिवालय सेवा में अनुभाग अधिकारियों के ग्रेड में वरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी।

वी. श्रीकुमार, अवर सचिव

सं. 21 (फा.सं. ए. 50050/19/2010-प्रशा.-1)---वर्ष 2007 की केन्द्रीय सचिवालय सेवा की ग्रेड-I की चयन सूची में नाम शामिल किये जाने के फलस्वरूप और कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 07.01.2010 के कार्यालय ज्ञापन सं. 5/8/2009-सी एस-1(यू) के अनुसरण में, भारत के राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय सेवा के नियमित अनुभाग अधिकारी, श्री उमेश शर्मा को दिनांक 01.07.2007 से और अगले आदेश

तक नियमित आधार पर राजस्व विभाग में अवर सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

2. केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड-I अवर सचिव में नियुक्ति की वास्तविक तारीख का ध्यान किये बिना पूर्वोक्त चयन सूची में अधिकारी की वरिष्ठता उसी क्रम में होगी जिस क्रम में चयन सूची में इनका नाम है। पूर्वोक्त चयन सूची में शामिल अधिकारी की अवर सचिव ग्रेड में नियमित तौर पर नियुक्ति माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली में सी डब्ल्यू पी सं. 13352/2005, ओ.ए. सं. 3294/2009 शीर्षक श्री पी.आर. शर्मा बनाम भारत संघ, केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, नई दिल्ली और ओ. ए. सं. 2675/2009 शीर्षक श्री पी. एस. भंडारी बनाम भारत संघ और अन्य के अंतिम परिणाम के अधीन होगी।

3. जबकि नौशनल आधार पर मूल नियम 22 झ(क)(i) के तहत अवर सचिव ग्रेड में उनके वेतन निर्धारण के लिए तथा अनुमोदित सेवा के उद्देश्यों के लिए पूर्वोक्त चयन सूची में शामिल उपर्युक्त अधिकारी की नियुक्ति 01.07.2007 से प्रभावी हुई मानी जाएगी, फिर भी ग्रेड में वेतन निर्धारण के वास्तविक लाभ तथापि उस तारीख से मिलेंगे जबसे वह केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अवर सचिव के ग्रेड में वास्तव में रहे हैं।

4. वित्तीय नियम 22 के प्रावधानों के अनुसार, श्री उमेश शर्मा वेतन निर्धारण हेतु विकल्प देने के लाभ के हकदार होंगे। फिर भी, यदि उनकी पहली जुलाई, 2007 से पूर्व तदर्थ अवर सचिव के रूप में प्रोन्नति हुई थी और उन्होंने खंडित विकल्प का लाभ ले लिया था, तो पुनः विकल्प देने के पात्र नहीं होंगे।

वी. श्रीकुमार, अवर सचिव

दिनांक 26 फरवरी 2010

सं. 23 (फा.सं. ए. 50050/18/2010-प्रशा.-1)---वर्ष 2006 की केन्द्रीय सचिवालय सेवा की ग्रेड-I की चयन सूची में नाम शामिल किये जाने के फलस्वरूप और कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 07.01.2010 के कार्यालय ज्ञापन सं. 5/8/2009-सी एस-1(यू) के अनुसरण में, भारत के राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय सेवा के नियमित अनुभाग अधिकारी, श्री बी. जिनखान मंग (सीएसएल 6555) को दिनांक 01.07.2006 से और अगले आदेश तक नियमित आधार पर अवर सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

2. केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड-I (अवर सचिव) में नियुक्ति की वास्तविक तारीख का ध्यान किये बिना पूर्वोक्त चयन सूची में अधिकारी की वरिष्ठता उसी क्रम में होगी जिस क्रम में चयन सूची में उनका नाम है। पूर्वोक्त चयन सूची में शामिल अधिकारी की अवर सचिव के ग्रेड में नियमित नियुक्ति माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली में सी डब्ल्यू पी सं. 13352/2005, ओ.ए. सं. 3294/2009 शीर्षक श्री पी.आर. शर्मा बनाम भारत संघ, केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, नई दिल्ली और ओ. ए. सं. 2674/2009 शीर्षक श्री पी. एस. भंडारी बनाम भारत संघ और अन्य के अंतिम परिणाम के अधीन होगी।

3. जबकि उपर्युक्त चयन सूची में शामिल उपर्युक्त अधिकारियों की नियुक्ति नौशनल आधार पर वित्तीय नियम 22झ(क)(i) के अन्तर्गत

अवर सचिव ग्रेड में उनके वेतन निर्धारण के नियतन के लिए तथा अनुमोदित सेवा के लिए 01.07.2006 से प्रभावी हुई मानी जाएगी, फिर भी ग्रेड में वेतन नियतन के वास्तविक लाभ तथापि उन्हें राजस्व विभाग में अवर सचिव के ग्रेड में उनके वास्तव में काम करने की तिथि अर्थात् 17.02.2010 (पूर्वाह्न) से ही मिलेंगे।

4. वित्तीय नियम 22 के प्रावधानों के अनुसार, श्री बी. जिनखान मंग अपने वेतन निर्धारण हेतु विकल्प देने के लाभ के हकदार भी होंगे। फिर भी, यदि उनकी पहली 1 जुलाई, 2006 से पूर्व तदर्थ अवर सचिव के रूप में प्रोन्नति हुई थी और यदि उन्होंने खंडित विकल्प का लाभ ले लिया था, तो वे पुनः विकल्प देने के पात्र नहीं होंगे।

वी. श्रीकुमार, अवर सचिव

दिनांक 4 मार्च 2010

सं. 24 (फा.सं. ए. 19011/5/2010-प्रशा.-1)--राष्ट्रपति, सुश्री राधा श्रीवास्तव, भारतीय राजस्व सेवा (आयकर : 72031) को दिनांक 26.02.2010 (पूर्वाह्न) से दो वर्षों की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, आयकर लोकपाल मार्गदर्शक सिद्धान्त, 2006 में अन्तर्विष्ट निबंधन एवं शर्तों के अधधीन उच्चतर प्रशासनिक ग्रेड 75,000--80,000/- रुपये के वेतनमान में हैदराबाद में आयकर लोकपाल के रूप में नियुक्त करते हैं।

वी. श्रीकुमार, अवर सचिव

दिनांक 5 मार्च 2010

सं. 25 (फा.सं. ए. 19011/27/2010-प्रशा.-1)--राष्ट्रपति, श्री ए. के. जैन, भारतीय राजस्व सेवा (आयकर : 73037) को दिनांक 30.12.2009 (पूर्वाह्न) से दो वर्षों की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, आयकर लोकपाल मार्गदर्शक सिद्धान्त, 2006 में अन्तर्विष्ट निबंधन एवं शर्तों के अधधीन उच्चतर प्रशासनिक ग्रेड 75,000--80,000/- रुपये के वेतनमान में नई दिल्ली में आयकर लोकपाल के रूप में नियुक्त करते हैं।

वी. श्रीकुमार, अवर सचिव

दिनांक 10 मार्च 2010

सं. 26 (फा.सं. ए. 19013/7/2010-प्रशा.-1)--राष्ट्रपति, श्री अनील कुमार भारद्वाज (भारतीय राजस्व सेवा : आयकर) को दिनांक 02.03.2010 (पूर्वाह्न) से तीन वर्षों की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, राजस्व विभाग के केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड में अवर सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

वी. श्रीकुमार, अवर सचिव

सं. 27 (फा.सं. ए. 19013/29/2009-प्रशा.-1)--राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारी श्री संजीव बहल को इस विभाग में दिनांक 22.10.2009 (पूर्वाह्न) से और अगले आदेश तक, अवर सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

वी. श्रीकुमार, अवर सचिव

दिनांक 15 मार्च 2010

सं. 28 (फा.सं. ए. 19014/2/2010-प्रशा.-1)--राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा की वरिष्ठ हिन्दी अनुवादक श्रीमती साधना शर्मा को दिनांक 11.03.2010 (पूर्वाह्न) से रुपये 15,600--39,100/- के वेतन बैंड-3 में 5,400/- रुपये के ग्रेड वेतन सहित राजस्व विभाग में सहायक निदेशक (राजभाषा) के रूप में तदर्थ आधार पर नियुक्त करते हैं।

2. श्रीमती साधना शर्मा, सहायक निदेशक (राजभाषा) की पदोन्नति पूर्णतः तदर्थ आधार पर एक वर्ष की अवधि के लिए अथवा नियमित सहायक निदेशक (राजभाषा) के उपलब्ध होने तक, इसमें जो भी पहले हो, के लिए है और यह नियुक्ति उन्हें वरीयता निश्चित करने या नियमित नियुक्ति का हक प्रदान नहीं करती है।

वी. श्रीकुमार, अवर सचिव

आर्थिक कार्य विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 25 मार्च 2010

सं. ए. 12011/10/2009-प्रशा. 2--इस विभाग की दिनांक 19.10.2009 के समसंख्यक अधिसूचनाओं के क्रम में, राष्ट्रपति, वित्त संवर्ग के केन्द्रीय सचिवालय स्टेनोग्राफर सेवा (सीएसएसएस) के आशुलिपिक ग्रेड 'ग' के निम्नांकित आशुलिपिकों को वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग में संशोधित वेतन बैंड : पीबी-2 (9,300--34,800/- रुपए + 4,800/- रुपए ग्रेड वेतन) में आशुलिपिक ग्रेड 'क एवं ख' (सम्मिलित) (निजी सचिव के रूप में पदनामित) के ग्रेड में नियुक्ति को पूर्णतया तदर्थ आधार पर 30.06.2010 तक की आगे की अवधि के लिए अथवा नियमित अधिकारियों के उपलब्ध होने तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, आगे बढ़ाते हैं:--

1. श्री योगेश कुमार
2. श्रीमती सरला अजबानी
3. श्रीमती रीता रानी
4. श्रीमती नीलाक्षी
5. श्री राकेश कुमार सूद
6. श्रीमती लता रामचन्द्रन
7. श्री संजीव कुमार शर्मा
8. श्री अब्दुल वाहिद
9. श्री अशोक कुमार वर्मा

2. आशुलिपिक ग्रेड 'क तथा ख' (सम्मिलित) (निजी सचिव के रूप में पदनामित) के रूप में उपर्युक्त स्टेनोग्राफर ग्रेड 'ग' की तदर्थ नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी:--

क. इस तदर्थ नियुक्ति से उन्हें इस ग्रेड में अनिश्चितकाल तक बने रहने अथवा नियमित नियुक्ति के लिए प्रवर सूची में सम्मिलित किए जाने अथवा केन्द्रीय सचिवालय स्टेनोग्राफर सेवा के 'क एवं ख' (सम्मिलित) (निजी सचिव के रूप में पदनामित) के ग्रेड में वरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा;

ख. इन तदर्थ नियुक्तियों को किसी भी समय बिना कोई कारण बताए समाप्त किया जा सकता है।

बी. रामकुमार, अवर सचिव

व्यय विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 26 मार्च 2010

सं. ए-12026/3/2008-प्रशा. I--इस विभाग की दिनांक 23.09.2009 की समसंख्यक अधिसूचना के क्रम में, श्री आलोक सक्सेना, भा.डा.से. (89) की वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के कार्यान्वयन कक्ष में वेतन बैंड 37,400—67,000/- रुपए (पी.बी-4) + 10,000/- रुपए (ग्रेड वेतन) में निदेशक के पद पर प्रतिनियुक्ति का कार्यकाल 1 अप्रैल, 2010 के पूर्वाह्न से 07 मई, 2010 के अपराह्न तक अथवा अगले आदेश होने तक, जो भी पहले हो, बढ़ाया जाता है।

मीताली घोष, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 31 मार्च 2010

सं. ए-12026/3/2003-प्रशा. I--राष्ट्रपति, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग में आर्थिक अधिकारी श्री आनंद सिंह परमार को 15,600—39,100/- रुपए (पी.बी-3) + 5,400/- रुपए (ग्रेड वेतन) के वेतन बैंड में 29 मार्च, 2010 के पूर्वाह्न से शुरुआत में 15 अप्रैल, 2011 के पूर्वाह्न तक की अवधि अथवा अगले आदेशों, इनमें से जो भी पहले हो, तक प्रतिनियुक्ति आधार पर वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग में सहायक निदेशक के रूप में नियुक्त करते हैं।

बी.एस. समकरिया, अवर सचिव

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 09 मार्च 2010

सं. ए-19011/10/2009-ई-1--राष्ट्रपति द्वारा श्री आशीष कुन्दा, भा.प्र.से. (एजीएमयू : 96) को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग में उनके वैयक्तिक उपाय के रूप में निदेशक के स्तर पर दिनांक 01.07.2010 से वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री (श्री आनन्द शर्मा) के निजी सचिव के पद पर नियुक्त किया जाता है। मंत्रीजी के निजी सचिव के रूप में उनके अनुमोदित कार्यकाल, जो दिनांक 09.04.2014 तक है, में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

अनुराग सक्सेना, निदेशक

विदेश व्यापार महानिदेशालय

नई दिल्ली, दिनांक 29 मार्च 2009

सं. 7/2010 (फा. सं. 6/1702/87/मा.सं.वि.अनु.-1/1132)--इस कार्यालय में विदेश व्यापार विकास अधिकारी, (सीएसएस) श्री करतार सिंह अधिवर्षिता की आयु पूरी करने पर 31.03.2010 (अपराह्न) से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो जाएंगे।

जी. पार्थसारथी, उप महानिदेशक

औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 25 मार्च 2010

सं. 7/3/2008-स्था-IV--राष्ट्रपति, 18.03.2010 (पूर्वाह्न) से श्री जैमिनी कुमार शर्मा, भा.प्र.से. (म.प्र. : 75) को भारत सरकार के सचिव के रैंक एवं वेतन में औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग में सदस्य सचिव, टैरिफ आयोग के रूप में नियुक्त करते हैं।

डी.के. शर्मा, अवर सचिव

दिनांक 30 मार्च 2010

सं. 7/2/2005-सीडीएन/स्था-IV--राष्ट्रपति, श्री वाई. वी. तेलंग, औद्योगिक सलाहकार (एस एवं टी), प्रशुल्क आयोग को दिनांक 18.03.2010 (पूर्वाह्न) से प्रशुल्क आयोग, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग में 37,400—67,000/- रुपए (पी.बी-4) + 10,000/- (ग्रेड पे) के वेतनमान में मुख्य सलाहकार (एस एवं टी) नियुक्त करते हैं।

डी.के. शर्मा, अवर सचिव

वस्त्र मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 18 मार्च 2010

सं. 5/2010 (ए-19011/2/2004-स्था.)--श्री जैमिनी कुमार शर्मा आईएस (एमपी : 75), को उनकी नियुक्ति सदस्य सचिव के रूप में औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन टैरिफ कमीशन में होने पर 18 मार्च, 2010 के पूर्वाह्न से वस्त्र मंत्रालय से कार्यमुक्त किया जाता है।

बलबीर सिंह, अवर सचिव

दिनांक 22 मार्च 2010

सं. 7/2010 (ए-12022/10/2000-स्था.)--राष्ट्रपति, श्री वी. श्रीनिवास, आईएस (आरजे : 89) को 37,400—67,000/- (पे बैंड-4) + 10,000/- ग्रेड पे के वेतनमान में दिनांक 22 मार्च, 2010 के पूर्वाह्न से पांच वर्षों की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, वस्त्र मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

बलबीर सिंह, अवर सचिव

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 3 मार्च 2010

सं. ए-12011/1/2007 (ए)--स्थापना--राष्ट्रपति, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 12.02.2010 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 5/6/2009-सीएस-II के अनुसरण में निम्नलिखित प्रधान निजी सचिवों की तदर्थ नियुक्ति की अवधि को दिनांक 30.06.2010 तक अथवा नियमित प्रधान निजी सचिव उपलब्ध होने तक, अथवा अधिवर्षिता की तारीख तक अथवा अगले आदेश तक, इनमें से जो भी पहले हो, के लिए आगे बढ़ाती है :--

1. श्री एस. सी. बत्तार
2. श्री एस. श्रीकुमार

2. ऊपर उल्लिखित अधिकारियों की तदर्थ नियुक्ति पूर्णतः तदर्थ आधार पर है और उन्हें उक्त ग्रेड में अनिश्चित रूप से बने रहने अथवा केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के प्रधान निजी सचिव के ग्रेड में वरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा।

अरुणोदय गोस्वामी, अवर सचिव

दिनांक 30 मार्च 2010

सं. ए-19011/12/2005-स्थापना--पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में निदेशक, श्री बी. के. देवांगन, भा.प्र.से. (एमटी: 93) को उनके केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति कार्यकाल के पूरा होने पर, दिनांक 3 अप्रैल, 2010 के अपराह्न से इस मंत्रालय से कार्यमुक्त किया जाता है और उनकी सेवाएं मणिपुर राज्य सरकार को सौंपी जाती हैं।

अरुणोदय गोस्वामी, अवर सचिव

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय

(भारी उद्योग विभाग)

नई दिल्ली-110011, दिनांक 31 मार्च 2010

सं. ए-19011/10/2006-प्रशासन--राष्ट्रपति, श्रीमती सुख वर्षा मलिक, अनुभाग अधिकारी, भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय को अधिवर्षिता की आयु प्राप्त होने पर दिनांक 31.03.2010 (अपराह्न) से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्ति की अनुमति देते हैं।

एल. सी. राम, अवर सचिव

सं. ए-19011/4/2008-प्रशासन--राष्ट्रपति, डॉ. सत्यनारायण दाश, आई.ए.एस. (केरल : 73) सचिव, भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय को अधिवर्षिता की आयु प्राप्त होने पर दिनांक 31.03.2010 (अपराह्न) से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्ति की अनुमति देते हैं।

एल. सी. राम, अवर सचिव

दिनांक 1 अप्रैल 2010

सं. ए-19011/3/2010-प्रशासन--राष्ट्रपति, श्री बी. एस. मीना, आई.ए.एस. (महाराष्ट्र : 75) को भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में दिनांक 01.04.2010 (पूर्वाह्न) से सचिव नियुक्त करते हैं।

एल. सी. राम, अवर सचिव

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)

नई दिल्ली-110001, दिनांक मार्च 2010

सं. ए-11011/1/2004-स्थापना-I--राष्ट्रपति, भारतीय प्रशासनिक सेवा (उ. प्र. : 80) के श्री राकेश गर्ग को दिनांक 22.03.2010 से

06.03.2012 तक की अवधि अथवा अगले आदेश होने तक, जो भी पहले हो, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग में पे बैंड-4 में 37,400--67,000/- रुपए के वेतनमान जमा 10,000/- रुपए ग्रेड-पे में संयुक्त सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

बी. बी. शर्मा, अवर सचिव

दिनांक 26 मार्च 2010

सं. ए-12022/1/2009-स्था.-I--राष्ट्रपति, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग में श्री बिला मंगापथी राव, आई.ओ.एफ.एस. (88) को 25 मार्च 2010 के पूर्वाह्न से पांच वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेश होने तक, जो भी पहले हो, 37,400--67,000/- रुपए के पे बैंड-4 जमा 8,700/- रुपए के ग्रेड वेतन पर निदेशक के रूप में नियुक्त करते हैं।

बी. बी. शर्मा, अवर सचिव

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग)

नई दिल्ली-110016, दिनांक 31 मार्च 2010

सं. ए-38018/04/2009-स्थापना--श्री मधुसूदन चोपड़ा, निदेशक, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग को अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर 31.03.2010 की अपराह्न से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्ति किया जाता है।

एस. के. कालरा, अवर सचिव

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

नई दिल्ली-110003, दिनांक 24 फरवरी 2010

सं. 17013/26/2008 भा.व.से.-II--राष्ट्रपति, भारतीय वन सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियमावली, 1966 के विनियम 9 के उप-विनियम (1) के साथ पठित भारतीय वन सेवा (भर्ती) नियमावली, 1966 के नियम 8 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा राज्य वन सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नामों के सामने क्रमशः दर्शायी गई चयन सूचियों के आधार पर तत्काल प्रभाव से भारतीय वन सेवा में नियुक्त करते हैं और भारतीय वन सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1966 के नियम 5 के उप नियम (1) के अंतर्गत भारतीय वन सेवा के हरियाणा संवर्ग में उनका आबंटन करते हैं :-

2005 की चयन सूची

क्रम सं.	अधिकारी का नाम	जन्म तिथि
	(सर्वश्री)	
1.	आई. पी. सिंह	02.09.1952
2.	भगवान सिंह	05.03.1952

2007 की चयन की सूची

अधिकारी का नाम	जन्म तिथि
विजेन्द्र सिंह कादिआन	19.11.1953

विवेक सक्सेना, निदेशक

सं. 25012/1/2010 भा.व.से.-II--राष्ट्रपति, भारतीय वन सेवा के मणिपुर-त्रिपुरा संवर्ग के 1986 बैच के अधिकारी डॉ. अजय कुमार को अखिल भारतीय सेवा (मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति लाभ) नियमावली, 1958 के नियम 16(2ए) के अनुसार 01 अप्रैल, 2010 अपराह्न से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की अनुमति देते हैं।

विवेक सक्सेना, निदेशक

नई दिल्ली-110003, दिनांक 5 जनवरी 2009

सं. 22012/74/2005 भा. व. से.-II--भारतीय वन सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1966 के विनियम 7 के उपनियम 3 में निहित उपबंधों का प्रयोग करते हुए माननीय केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की प्रधान पीठ, नई दिल्ली द्वारा ओ ए सं. 2616/2005 के संबंध में दिनांक 25.09.2008 को पारित आदेश के अनुपालन में, वर्ष 1990 के लिए उत्तर प्रदेश राज्य वन सेवा के अधिकारियों के भारतीय वन सेवा में पदोन्नति के लिए चयन सूची तैयार करने के लिए दिनांक 19 जून, 2008 को चयन समिति की बैठक आयोजित की गई। उक्त बैठक में तैयार की गई चयन सूची को संघ लोक सेवा आयोग ने अनुमोदित कर दिया है, जिसमें भारतीय वन सेवा के उत्तर प्रदेश संवर्ग में उपलब्ध पदोन्नति रिक्तियों को भरने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य वन सेवा के निम्नलिखित एक सदस्य का नाम शामिल है :-

अधिकारी का नाम	जन्म तिथि
श्री राजीव अस्थाना	03.07.1955

जोसेफ लुईखम, अवर सचिव

दिनांक 5 मार्च 2009

सं. 22012/26/2002-आई.एफ.एस.-II--उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 72 की उप धारा (4) के साथ पठित भारतीय वन सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1966 के नियम 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उत्तराखंड उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा रिट याचिका सं. 2005 का 41 में पारित दिनांक 06.12.2006 के संशोधित आदेश और विशेष अवकाश याचिका सं. 9544-9545/2008 पर भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 25-07-2008 को पारित आदेश के आधार पर श्री विनीत कुमार पांगटे, भ. व. से. (1988 : आरआर) को दिनांक 9 नवम्बर, 2000 से उत्तराखंड संवर्ग आर्बिट्रि करती है। 1988 : आरआर बैच के अधिकारियों की तुलनात्मक वरिष्ठता दिनांक 30 दिसम्बर, 1997 की अधिसूचना सं. मि. सं. 18014/22 (डीआर)/97-आई.एफ.एस.-II द्वारा शासित की जाएगी।

जोसेफ लुईखम, अवर सचिव

दिनांक 18 मई 2009

सं. 17015/01/2006-भ. व. से.-II--केन्द्र सरकार, भारतीय वन सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1966 के नियम 5 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और संबद्ध राज्य सरकार से परामर्श करते हुए भारतीय वन सेवा परीक्षा, 2005 के अधिकारियों को दिनांक 13 जून, 2008 की संयोजक अधिसूचना के तहत राज्य संवर्ग आर्बिट्रि करती है।

2. निम्नलिखित अधिकारी, जिन्हें असम, मेघालय और मणिपुर-त्रिपुरा संयुक्त संवर्ग में नियुक्त किया गया था, उन्हें उनके नाम के सामने दर्शाए गए राज्यों में नियुक्त किया जाता है :-

क्रम	अधिकारी का नाम	दिनांक 13.06.2008 की अधिसूचना तहत आर्बिट्रि संयुक्त संवर्ग	राज्य संवर्ग जहां के लिए आर्बिट्रि किया गया है
1.	मूर्ति बी. एन. एन.	असम-मेघालय	असम
2.	मंजुनाथ सी.	असम-मेघालय	मेघालय
3.	गेथोलु थाहमेई	मणिपुर-त्रिपुरा	मणिपुर

जोसेफ लुईखम, अवर सचिव

दिनांक 13 जुलाई 2009

सं. 17013/12/2008 आई.एफ.एस.-II--भारतीय वन सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियमन 1966 के विनियम 7 के उपनियम (3) में निहित उपबंधों का प्रयोग करते हुए वर्ष 2008 के लिए पश्चिम बंगाल राज्य वन सेवा से भारतीय वन सेवा में पदोन्नति की चयन सूची तैयार करने के लिए चयन समिति की एक बैठक 30 दिसम्बर, 2008 को आयोजित की गई थी। संघ लोक सेवा आयोग ने उक्त बैठक में तैयार की गई चयन सूची को अनुमोदित कर दिया है। इस चयन सूची में भारतीय वन सेवा के पश्चिम बंगाल संवर्ग में उपलब्ध पदोन्नति कोट रिक्तियों को भरने के लिए राज्य वन सेवा पश्चिम बंगाल के निम्नलिखित अधिकारियों के नाम शामिल हैं :-

चयन सूची-2008

क्रम सं	नाम	जन्म तिथि
	(सर्वश्री)	
1.	अजोय कुमार दास	01.03.1965
2.	समीर गजामेर	18.09.1966

जोसेफ लुईखम, अवर सचिव

दिनांक 29 अक्टूबर 2009

सं. 17013/06/2008 आई.एफ.एस.-II--भारतीय वन सेवा (वरिष्ठता का नियमन) नियमावली, 1997 के नियम 3(3)(ii) और नियम 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार भारतीय वन सेवा के

कर्नाटक संवर्ग के भारतीय वन सेवा के निम्नलिखित दो (2) अधिकारियों के आबंटन वर्ष/वरिष्ठता का निर्धारण निम्नानुसार करती है :--

क्र. सं.	अधिकारी का नाम	चयन सूची वर्ष	राज्य वन सेवा में नियुक्ति की तारीख	31.12.05 को सेवा के पूरे किए गए वर्ष	कुल वेटेज (प्रत्येक तीन वर्ष के लिए एक वर्ष का वर्ष)	वेटेज के अनुसार आबंटन का वर्ष	स्थान
(सर्वश्री)							
1.	देवराज एन	2008	03.03.1990	17 वर्ष	5 वर्ष	2003	प्रची गंगवार आर आर के नीचे (2003 बैच)
2.	प्रकाश एस चैतलकर	2008	03.03.1990	17 वर्ष	5 वर्ष	2003	श्री देवराज एन के नीचे

जोसेफ लुईखम
अवर सचिव

दिनांक 3 दिसम्बर 2009

सं. 17013/25/2007 आई.एफ.एस.-II--भारतीय वन सेवा (वरिष्ठता का नियमन) नियमावली, 1997 के नियम 3(3)(ii) और नियम 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार भारतीय वन सेवा के झारखंड संवर्ग के भारतीय वन सेवा के निम्नलिखित दो (2) अधिकारियों के आबंटन वर्ष/वरिष्ठता का निर्धारण निम्नानुसार करती है :--

क्र. सं.	अधिकारी का नाम	चयन सूची वर्ष	राज्य वन सेवा में नियुक्ति की तारीख	31.12.05 को सेवा के पूरे किए गए वर्ष	कुल वेटेज (प्रत्येक तीन वर्ष के लिए एक वर्ष का वर्ष)	वेटेज के अनुसार आबंटन का वर्ष	स्थान
(सर्वश्री)							
1.	अमर नाथ प्रसाद सिंह	2006	21.12.1987	20 वर्ष	6 वर्ष	2000	अजीत कुमार सिंह आई एफ एस के नीचे 2000
2.	विजय कुमार पाल	2006	21.12.1987	20 वर्ष	6 वर्ष	2000	श्री अमर नाथ प्रसाद सिंह के नीचे

जोसेफ लुईखम, अवर सचिव

नई दिल्ली-110003, दिनांक 31 मार्च 2009

सं. 17013/27/2008 भा.व.से.-II--राष्ट्रपति, भारतीय वन सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियमावली, 1966 के विनियम 7 के उप-विनियम 3 में निहित उपबंधों का प्रयोग करते हुए संघ लोक सेवा आयोग ने वर्ष 2008 में हिमाचल प्रदेश राज्य वन सेवा से भारतीय वन

सेवा पदोन्नति के लिए 31.12.2008 को आयोजित हुई बैठक में तैयार की गई चयन सूची को अनुमोदित कर दिया है जिसमें भारतीय वन सेवा में हिमाचल प्रदेश संवर्ग में उपलब्ध प्रोन्नति कोट रिक्रियों को भरने के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य वन सेवा के निम्नलिखित दो अधिकारियों का नाम शामिल है :--

क्र.सं.	अधिकारी का नाम	जन्म तिथि
(सर्वश्री)		
1.	अनिल कुमार शर्मा	10.04.1965
2.	अजित कुमार ठाकुर	24.01.1965

सी. एम. शर्मा
अवर सचिव

दिनांक 8 मार्च 2010

सं. 17013/07/2008 भा.व.से.-II--राष्ट्रपति, भारतीय वन सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियमावली, 1966 के विनियम 9 के उप-विनियम (1) के साथ पठित भारतीय वन सेवा (भर्ती) नियमावली, 1966 के नियम 8 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सिक्किम राज्य वन सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नामों के सामने क्रमशः दर्शायी गयी चयन सूचियों के आधार पर तत्काल प्रभाव से भारतीय वन सेवा में नियुक्त करते हैं और भारतीय वन सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1966 के नियम 5 के उप नियम (1) के अंतर्गत भारतीय वन सेवा के सिक्किम संवर्ग में उनका आबंटन करते हैं :--

2006 की चयन सूची

क्र.सं.	अधिकारी का नाम	जन्म तिथि
(सर्वश्री)		
1.	बी. के. तिवारी	12.11.1953
2.	गुट लेप्चा	04.08.1952
3.	बी. पी. प्रधान	20.01.1964

2008 की चयन सूची

क्र.सं.	अधिकारी का नाम	जन्म तिथि
(सर्वश्री)		
1.	बी. एस. सिकटेल	04.01.1960
2.	वाई. पी. गुरुंग	08.01.1961

सी. एम. शर्मा
अवर सचिव

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

नई दिल्ली-110108, दिनांक 5 अप्रैल 2010

सं. ए-12025/184/2007-सीएचएस-I--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डॉ. दुर्गेश को दिनांक 23 मार्च 2009 के अपराह्न से अगले आदेशों तक केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी ग्रेड में 5,400/- रु. के ग्रेड वेतन के साथ 15,600--39,100/- रु. के

वेतनमान में अस्थायी क्षमता में नियुक्त करते हैं। डॉ. दुर्गेश को आगामी आदेशों तक डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली में तैनात किया जाता है। डॉ. दुर्गेश नियुक्ति की तारीख से दो वर्षों के लिए परीक्षा पर रहेंगे।

माया प्रकाश, अवर सचिव

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 16 मार्च 2010

सं. ए-32013/03/2009-स्थापना-I--केन्द्रीय सचिवालय सेवा की अनुभाग अधिकारी श्रीमती वीणा वर्मा (सीएसएल सं. 4896) का नाम कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 07.01.2010 के का.ज्ञा. सं. 5/8/2009-सीएस-I (यू) के तहत सी एस एस के ग्रेड-I (अवर सचिव) में नियुक्ति हेतु वर्ष 2006 की चयन सूची में शामिल होने के परिणामस्वरूप उन्हें दिनांक 09.03.2010 (पूर्वाह्न) से नियमित आधार पर केन्द्रीय सचिवालय सेवा (अवर सचिव) के ग्रेड-I में नियुक्त किया जाता है।

2. श्रीमती वीणा वर्मा की नियुक्ति अनुमोदित सेवा तथा अवर सचिव के पद पर काल्पनिक आधार पर वेतन निर्धारण के प्रयोजनार्थ दिनांक 01.07.2006 से प्रभावी मानी जाएगी।

3. यह नियुक्ति दिल्ली उच्च न्यायालय में सीडब्ल्यूपी सं. 13352/2005; केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, नई दिल्ली, में श्री पी.आर. शर्मा बनाम भारत संघ शीर्षक वाले ओए सं. 3294/2009; और श्री एस. पी. भंडारी बनाम भारत संघ एवं अन्य शीर्षक वाले ओए सं. 2674/2009 के फैसले के अधधीन होगी।

अनिल उनियाल, अवर सचिव

कृषि मंत्रालय

(कृषि एवं सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 26 फरवरी 2010

सं. 38012/07/2009-स्थापना-I--श्री टी. नन्द कुमार, भा.प्र.से. (ज्ञा:72), सचिव, कृषि एवं सहकारिता विभाग अधिवर्षिता की आयु पूर्ण कर दिनांक 28 फरवरी, 2010 (अपराह्न) को सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त होंगे।

पी. विजय कुमार, अवर सचिव

दिनांक 31 मार्च 2010

सं. 38012/01/2010-स्थापना-I--श्री दिलीप कुमार राय, अवर सचिव, कृषि एवं सहकारिता विभाग अधिवर्षिता की आयु पूर्ण कर दिनांक 31 मार्च, 2010 (अपराह्न) को सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त होंगे।

पी. विजय कुमार, अवर सचिव

पशु-पालन, डेयरी एवं मत्स्यपालन विभाग
(केन्द्रीय मत्स्य नौचालन एवं ईजीनियरी प्रशिक्षण संस्थान)

कोच्चिन-682016, दिनांक 07 नवम्बर 2009

विषय : श्री जी. रंजित, गियर तकनीशियन [तकनीकी सहायक (मत्स्ययन प्रौद्योगिकी) के रूप में पुनः नामोद्दिष्ट] की अप्राधिकृत अनुपस्थिति-केन्द्रीय सिविल सेवाएँ (अस्थायी सेवा नियम) 1965 के नियम 5 के अधीन सेवा की समाप्ति।

संदर्भ : 1. इस कार्यालय की ओ.एम. सं. 6-12/2007 प्रशा. दिनांक 24.09.2007, 08.10.2007, 02.11.2007, 09.01.2008, 06.02.2008, 04.04.2008 तथा 01.07.2008।

2. भारत के राजपत्र में दिनांक 30.05.2009 को प्रकाशित समाप्ति सूचना।

सं. 6-12/2007-प्रशा.--इस संस्थान के श्री जी. रंजित, गियर तकनीशियन [तकनीकी सहायक (मत्स्ययन प्रौद्योगिकी) के रूप में पुनः नामोद्दिष्ट] ने उपर्युक्त ज्ञापन पर कोई प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त की है और अब भी सरकारी काम पर अनुपस्थित हैं। केन्द्रीय सिविल सेवाएँ (अस्थायीसेवा) नियम 1965 के नियम 5 के उपनियम (1) के परंतुक के अनुसरण में, 30.05.2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित सेवा समाप्ति सूचना दिनांक 05.08.2008 के निबंधन के मुताबिक 30.06.2009 के पूर्वाह्न से श्री जी. रंजित, गियर तकनीशियन [तकनीकी सहायक (मत्स्ययन प्रौद्योगिकी)] के रूप में पुनः नामोद्दिष्ट की सेवाएँ समाप्त की जाती हैं। उनकी सेवा समाप्ति की तारीख से इस संस्थान से उनके सभी संबंध विच्छेदित माने जाएँगे।

सी. रत्तिनदास, निदेशक

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

नई दिल्ली-110003, दिनांक 30 मार्च 2010

सं. ए-12035/1/2010-स्था.--राष्ट्रपति, मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 25 मार्च, 2010 के का. ज्ञा. सं. 4/5/2010-ईओ(एमएम-1) तथा गृह मंत्रालय के 30 मार्च, 2010 के का.ज्ञा. सं. 1-21016/30/2005-आईपीएस-III, जिसके माध्यम से दिनांक 19.02.2010 (अपराह्न) से विशेष कार्य अधिकारी के रूप में नियुक्ति संबंधी कार्योंतर अनुमोदन प्रदान किया गया है, के अनुसरण में सुश्री नुजहत हसन को अल्पसंख्यक कार्य राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री सलमान खुर्शीद के विशेष कार्य अधिकारी के रूप में वेतन बैंड-4 (37,400-67,000/- रुपए) और ग्रेड वेतन 8,700/- रुपए में दिनांक 19.02.2010 (अपराह्न) से 20.02.2012 तक की अवधि के लिए सहयोजन आधार पर अथवा मंत्री के विशेष कार्य अधिकारी के पद पर बने रहने तक के लिए अथवा अगले आदेशों तक के लिए, जो भी पहले हो, नियुक्त करती है।

गोपाल दास, उप सचिव

जनजातीय कार्य मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 15 मार्च 2010

सं. 11013/2/2009-स्थापना--राष्ट्रपति, श्री अक्षित गोपाल, आईएफएस (एमपी : 90) को जनजातीय कार्य मंत्रालय में दिनांक 26.02.2010 के

पूर्वाह्न से 5 वर्ष की अवधि या अगले आदेशों तक जो भी पहले हो, के लिए निदेशक के पद पर नियुक्त करते हैं।

ए. के. साहा, अवर सचिव

संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(दूरसंचार विभाग)

नई दिल्ली-110001, दिनांक 22 मार्च 2010

सं. 100-42/2009-एसटीजी-1--श्री बी. गोपाल (स्टाफ सं.-8380), भारतीय दूरसंचार सेवा समूह "क" के वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड अधिकारी जो भारत संचार निगम लिमिटेड के आंध्र प्रदेश दूरसंचार सर्किल में महाप्रबंधक के रूप में कार्यरत थे, का दिनांक 23.10.2009 को निधन हो गया है।

बी.एम. डेविड, अवर सचिव

सं. 100-42/2009-एसटीजी-1--श्री ए. गणेशन (स्टाफ सं.-8351), भारतीय दूरसंचार सेवा समूह "क" के वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड अधिकारी जो भारत संचार निगम लिमिटेड के तमिलनाडु दूरसंचार सर्किल में महाप्रबंधक के रूप में कार्यरत थे, का दिनांक 25.12.2009 को निधन हो गया है।

बी.एम. डेविड, अवर सचिव

सूचना प्रौद्योगिकी विभाग

नई दिल्ली-110003, दिनांक 01 अप्रैल 2010

सं 3(13)/2009-कार्मिक. I--अनुभाग अधिकारी के पद पर पदोन्नति के लिए आयोजित सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा 2009 के परिणाम के आधार पर सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने एतद्वारा निम्नलिखित अधिकारियों (स्वस्थाने/वैयक्तिक) को पदोन्नत होने पर सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में दिनांक 31.03.2010 के अपराह्न से 4,800/- रुपये के ग्रेड वेतन सहित 9,300—34,800/- रुपये के वेतन बैंड-2 में नियमित आधार पर अनुभाग अधिकारी नियुक्त किया है:--

- i) श्री संजीत चौधरी (कर्मचारी कोड : 0895)
- ii) श्री मोहिन्दर पाल सिंह (कर्मचारी कोड : 0549)
- iii) श्री ग्यारसी राम मीणा (कर्मचारी कोड : 0343)
- iv) श्री दिनेश कुमार सागर (कर्मचारी कोड : 0479)

राजकुमार मनचन्दा, संयुक्त निदेशक

राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र

नई दिल्ली-110003, दिनांक 31 मार्च 2010

सं. एनआईसी/पीएफ/332/2009-प्रशा.-I--श्री वीर सिंह, वैज्ञानिक-डी (कर्मचारी कोड सं. 332) राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र, नई दिल्ली से दिनांक 31 मार्च, 2010 की अपराह्न को सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो रहे हैं और उन्हें उसी दिन से कार्यमुक्त किया जाता है।

आर.एम. नायर, उप-निदेशक (प्रशा. I)

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, दिनांक 25 मार्च 2010

सं. ई(जी.पी.)/2008/3/5--राष्ट्रपति महोदया, भारतीय रेलों के कार्मिक विभाग के 27 ग्रुप 'बी' अधिकारियों की उल्लिखित रेलों पर 03.02.2010 से भारतीय रेल कार्मिक सेवा (आई.आर.पी.एस.) के कनिष्ठ वेतनमान में सहर्ष नियुक्ति करती हैं :--

2009-10 के लिए पैनेल

अधिकारियों का नाम

मध्य रेलवे

1. श्री आर. बी. बारकडे
2. श्री डी. वी. देवघरे (अ.ज.जा.) (अ.ज.जा. के आरक्षित पद पर पदोन्नति)

पूर्व तट रेलवे

श्री पी. नारायण राव

पूर्व रेलवे

श्री टी. सी. मुखर्जी

उत्तर मध्य रेलवे

श्री ए. के. सिन्हा

पूर्वोत्तर रेलवे

1. श्री एल. एन. आर. त्रिपाठी
2. श्री एस. डी. दूबे
3. श्री राम कमल
4. श्री जी. जे. सिन्हा

पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे

1. श्री एस. चक्रवर्ती
2. श्री ए. चक्रवर्ती
3. श्री अशोक सेन गुप्ता

उत्तर रेलवे

1. श्री हर्ष वर्धन नांगल
2. श्री अरुण शर्मा
3. श्री ओम प्रकाश (अ.जा.)
4. श्री राम किशन (अ.जा.)

(अ.जा. के आरक्षित पद पर पदोन्नति)

(अ.जा. के आरक्षित पद पर पदोन्नति)

उत्तर पश्चिम रेलवे

1. श्री राजेन्द्र मोहन गौर
2. श्री राजू सिंह परिहार (अ.जा.) (अ.जा. के आरक्षित पद पर पदोन्नति)

दक्षिण रेलवे

1. श्री सी. एस. उमाकान्त
2. श्री एस. अडैकलम
3. श्री आर. के. मोहन नारायणन
4. श्री पी. अब्राहम जैकब
5. श्री सी. आर. सुन्दरेश (आर.डब्ल्यू.एफ.के)

दक्षिण पश्चिम रेलवे

श्री एस. श्रीनिवासा राघवन

पश्चिम मध्य रेलवे

श्री आर. डी. शर्मा

पश्चिम रेलवे

1. श्री ओ. पी. पाठक
2. श्री यू. वी. पटेल (अ.जा.जा.) (अ.जा.जा. के आरक्षित पद पर पदोन्नति)

शिवाजी रक्षित, सचिव
(रेलवे बोर्ड)

सं. ई(जी.पी.)/2008/3/5--राष्ट्रपति महोदया, भारतीय रेलों के कार्मिक विभाग के निम्नलिखित ग्रुप 'बी' अधिकारी की उल्लिखित रेलवे पर 03.02.2010 से भारतीय रेल कार्मिक सेवा (आई.आर.पी.एस.) के कनिष्ठ वेतनमान में सहर्ष नियुक्ति करती है :--

2009-10 के लिए पैनल

अधिकारी का नाम

दक्षिण पूर्व रेलवे

श्री एस. सी. विस्वास (अ.जा.) (अ.जा. के आरक्षित पद पर पदोन्नति)

शिवाजी रक्षित, सचिव
(रेलवे बोर्ड)

दिनांक 26 मार्च 2010

सं. ई(जी.पी.)/2005/1/55--राष्ट्रपति महोदया, भारतीय रेलों के दूरसंचार विभाग के निम्नलिखित ग्रुप 'बी' अधिकारियों की उल्लिखित

रेलवे पर 29.05.2009 से भारतीय रेल सिग्नल एवं दूरसंचार सेवा (आई.आर.एस.एस.ई.) के ग्रुप 'ए' कनिष्ठ वेतनमान में सहर्ष नियुक्ति करती है :--

अधिकारियों का नाम

मध्य रेलवे

2007-08 के लिए पैनल

श्री पी. आर. पटनकर

2008-09 के लिए पैनल

श्री बी. के. नीला

अतः दिनांक 19.08.2009 की समसंख्यक अधिसूचना द्वारा श्री पी. आर. पटनकर की दिनांक 29.05.2009 से मध्य रेलवे की वर्ष 2008-09 के पैनल में, भारतीय रेल सिग्नल एवं दूरसंचार सेवा (आई.आर.एस.एस.ई.) के ग्रुप 'ए' कनिष्ठ वेतनमान में, की गई नियुक्ति को रद्द किया जाता है :--

अधिकारियों का नाम

उत्तर रेलवे

2006-07 के लिए पैनल

श्री ए. एल. शर्मा

2007-08 के लिए पैनल

श्री एच. के. शर्मा

2008-09 के लिए पैनल

श्री ए. के. शर्मा

अतः दिनांक 17.07.2009 की समसंख्यक अधिसूचना द्वारा सर्वश्री ए. एल. शर्मा और एच. के. शर्मा की दिनांक 29.05.2009 से उत्तर रेलवे की क्रमशः वर्ष 2007-08 एवं 2008-09 के पैनल में, भारतीय रेल सिग्नल एवं दूरसंचार सेवा (आई.आर.एस.एस.ई.) के ग्रुप 'ए' कनिष्ठ वेतनमान में, की गई नियुक्ति को रद्द किया जाता है :--

अधिकारी का नाम

पूर्वांतर रेलवे

2008-09 के लिए पैनल

1. श्री आर. एस. त्रिपाठी
2. श्री ए. के. गुप्ता
3. श्री जे. एन. गुप्ता

शिवाजी रक्षित, सचिव
रेलवे बोर्ड

सं. ई(जी.पी.)/2006/3/4--राष्ट्रपति महोदया, भारतीय रेलवे के यांत्रिकी इंजीनियरी विभाग के निम्नलिखित ग्रुप 'बी' अधिकारी की

उल्लिखित रेलवे पर 20.03.2009 से भारतीय रेल यांत्रिक इंजीनियरी सेवा (आई.आर.एस.एम.ई.) के ग्रुप 'ए' कनिष्ठ वेतनमान में सहर्ष नियुक्ति करती हैं :—

2007-08 के लिए पैल

आई.सी.एफ.

अधिकारी का नाम

श्री पी. शिवारमन (अ.जा.) (अ.जा. के आरक्षित पद पर पदोन्नति)

शिवाजी रक्षित, सचिव
(रेलवे बोर्ड)

दिनांक 31 मार्च 2010

सं. ई.आर.बी.-1/2010/2/16--राष्ट्रपति जी, श्री ए. के. मैत्रा वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड/भारतीय रेल यातायात सेवा, पूर्व रेल, को उच्च प्रशासनिक ग्रेड में पदोन्नति होने पर 03.03.2010 के पूर्वाह्न से 67,000—79,000/- रु. के वेतनमान में सलाहकार (सतर्कता), रेलवे बोर्ड के रूप में सहर्ष नियुक्त करते हैं।

शिवाजी रक्षित, सचिव
(रेलवे बोर्ड)

विद्युत मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 31 मार्च 2010

सं. 14/1/2007-डी.वी.सी.--इस मंत्रालय के दिनांक 27 मार्च, 2009 के समसंख्यक कार्यालय आदेश के अनुक्रम में विद्युत मंत्रालय में अपर सचिव श्री जी. बी. प्रधान को 01 मार्च, 2009 से 30 जून, 2009 तक अध्यक्ष, दामोदर घाटी निगम (डीवीसी) के अतिरिक्त प्रभार का विस्तार करते हुए श्री जी. बी. प्रधान, अपर सचिव, विद्युत मंत्रालय को दिनांक 30.06.2009 के बाद से दिनांक 13.10.2009 तक अर्थात् नियमित पदधारी द्वारा पदभार ग्रहण करने की तिथि तक डीवीसी के अध्यक्ष पद के अतिरिक्त प्रभार को जारी रखे जाने के लिए सक्षम प्राधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति एतद्वारा प्रदान की जाती है।

पुनीत कुमार गोयल, निदेशक (धर्मल)

नई दिल्ली, दिनांक 5 अप्रैल 2010

सं. 11/2010-मि.(सं. ए-38012/1/2008-प्रशा. एक)--राष्ट्रपति, श्री नितिन प्रकाश को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की केन्द्रीय विद्युत इंजीनियरिंग (समूह-क) सेवा में सहायक निदेशक ग्रेड एक/सहायक कार्यकारी अभियन्ता के ग्रेड में 22 मार्च 2010 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक नियुक्त करते हैं।

2. श्री नितिन प्रकाश दो वर्ष की अवधि तक परिवीक्षाधीन रहेंगे।

एन. श्रीरामन, अवर सचिव

जल संसाधन मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 11 मार्च 2010

सं. 04/2010 (फाईल सं. 2/8/2009 प्रशा.)--राष्ट्रपति, श्री वी. एस. धर्मा कुमार को दिनांक 18.06.2009 (पूर्वाह्न) से वेतन बैंड-3 अर्थात् रुपए 15,600—39,100/- + 7,600/- (ग्रेड वेतन) में को-टर्मिनस (सह-अवधि) आधार पर अथवा जब तक वे मंत्री के अपर निजी सचिव के रूप में कार्य करना समाप्त न कर दें अथवा अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, तक के लिए उन्हें संसदीय कार्य एवं जल संसाधन मंत्री के अपर निजी सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं।

एन. के. गुप्ता, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 31 मार्च 2010

सं. 7/7/2009-सी.जी.डब्ल्यू.बी.--राष्ट्रपति, श्री जे. एन. शर्मा, सहायक कार्यपालक अभियन्ता को 18.01.2010 से पदोन्नति पर केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड में पीबी-3, 15,600—39,100/- रुपए + जी.पी. 6,600/- रुपए के वेतनमान में कार्यपालक अभियन्ता के पद पर नियुक्त करते हैं।

एम. एन. सुकुमारन, अवर सचिव

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 30 मार्च 2010

सं. ए-19011/22/2007-प्रशा.-I--राष्ट्रपति, सी.एस.एस.एस. के निजी सचिव ग्रेड के अधिकारी श्री शाक्य कुमार का नाम प्रधान निजी सचिव के चयन सूची वर्ष 2005 में शामिल किए जाने पर नियमित आधार पर उन्हें श्रम एवं रोजगार मंत्रालय में प्रधान निजी सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

प्रदीप गौड़, अवर सचिव

RAJYA SABHA SECRETARIAT

New Delhi-110001, the 26th March 2010

No. RS/1/2010-Perl.—The Hon'ble Chairman, Rajya Sabha has been pleased to appoint on re-appointment basis Shri K. D. Singh, retired Secretariat (Law), Government of India as Secretary to the Committee constituted under Section 3 of Judges (Inquiry) Act, 1968 in the Pay Scale of the Secretary to the Government of India viz. Rs. 80,000/- (fixed) w.e.f. the forenoon of 26th March, 2010. His appointment shall be co-terminus with the tenure of the Committee and shall further be at the pleasure of Hon'ble Chairman, Rajya Sabha.

P. GOPALAKRISHNAN, Addl. Secy.

No. RS/1/2010/20-Perl.—The Hon'ble Chairman, Rajya Sabha has been pleased to appoint on re-employment basis Shri H. S. Kapoor, retired Registrar, Supreme Court of India as Registrar to the Committee constituted under Section 3 of Judges (Inquiry) Act, 1968 in the Pay Scale of the Additional Secretary to the Government of India viz. Rs. 67,000—79,000/- (HAG) w.e.f. the forenoon of 26th March, 2010. His appointment shall be co-terminus with the tenure of the Committee and shall further be at the pleasure of Hon'ble Chairman, Rajya Sabha.

P. GOPALAKRISHNAN, Addl. Secy.

New Delhi-110001, the 30th March 2010

No. RS/3/5/2010/22-Perl.—The Hon'ble Chairman, Rajya Sabha has been pleased to appoint Shri Rana Dharendra Pratap Yadav, Junior Parliamentary Interpreter in the Rajya Sabha Secretariat to officiate in the grade of Parliamentary Interpreter in the Pay Band-3 of Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay of Rs. 6,600/- plus usual allowances as admissible under the rules, on regular basis in that Secretariat, with effect from the forenoon of 30th March, 2010, until further orders.

S. RANGARAJAN, Dy. Dir.

The 1st April 2010

No. RS.3/1/1/2010/25-Perl.—Shri Vijay Prakash Vashishth, who was earlier appointed to officiate in the grade of Legislative/Committee/Protocol/Executive Officer in the Rajya Sabha Secretariat on in situ basis vide Notification No. RS.3/1/1/2009/105-Perl. dated 30th December, 2009 stands adjusted against a regular vacancy in the said grade with effect from the forenoon of 1st April, 2010.

2. The above appointment would be subject to the orders of the Delhi High Court at the time of final disposal of Writ Petition No. 3025/88.

S. RANGARAJAN, Dy. Dir.

LOK SABHA SECRETARIAT

New Delhi-110001, the 31st March 2010

No. PF-1328-R(3)/GN-6394/AN-I/2010—On attaining the

age of superannuation, Shri Ved Prakash Sharma-II, Joint Director (Translation) has retired from service with effect from the afternoon of 31.03.2010.

A. LOUIS MARTIN, Jt. Secy.

DEPARTMENT OF SPACE

Bangalore-560231, the 16th February 2010

No. 6/1(1)2010-I—The President is pleased to appoint on promotion the under mentioned Scientists/Engineers to the posts mentioned against each in the Space Application Centre, Ahmedabad of the Department of Space in an officiating capacity with effect from the forenoon of 01.07.2009 and until further orders :—

Sl. No.	Name	Post from which Promoted	Post to which Promoted
	Shri/Smt./Kum.		
1.	Santanu Chowdhury	Scientist/Engineer-G	Scientist/Engineer-H
2.	N. K. Savsani	Scientist/Engineer-SF	Scientist/Engineer-SG
3.	Rakesh Kumar Bhan	Scientist/Engineer-SD	Scientist/Engineer-SE
4.	Akhilesh Sharma	Scientist/Engineer-SD	Scientist/Engineer-SE
5.	D. K. Dhodi	Scientist/Engineer-SD	Scientist/Engineer-SE
6.	Rati Singh	Scientist/Engineer-SD	Scientist/Engineer-SE
7.	Sudesh Kumar Jain	Scientist/Engineer-SD	Scientist/Engineer-SE
8.	R. L. Shah	Scientist/Engineer-SD	Scientist/Engineer-SE
9.	Shilpi Soni	Scientist/Engineer-SD	Scientist/Engineer-SE
10.	Saumi S.	Scientist/Engineer-SD	Scientist/Engineer-SE
11.	K. N. Babu	Scientist/Engineer-SD	Scientist/Engineer-SE
12.	Dr. Randhir Singh	Scientist/Engineer-SD	Scientist/Engineer-SE
13.	Vinay Kumar S.	Scientist/Engineer-SD	Scientist/Engineer-SE
14.	Rahul Dev	Scientist/Engineer-SC	Scientist/Engineer-SD

MANOHAR L. VANNIAR, Dy. Secy.

No. 6/1(1)2010-I—The President is pleased to appoint on promotion the under mentioned Scientists/Engineers-SG as Scientists/Engineers-G in the Space Application Centre, Ahmedabad of the Department of Space in an officiating capacity with effect from the forenoon of 04.08.2009 and until further orders:—

Shri/Smt./Kum.

1. K. S. Parikh
2. Dr. A. K. Shukla

MANOHAR L. VANNIAR, Dy. Secy.

No. 6/1/(1)2010-I—The President is pleased to appoint on promotion Shri L. B. Kushwaha, Scientist/Engineer-SG as Scientist/Engineer-G in the Space Application Centre, Ahmedabad of the Department of Space in an officiating capacity with effect from the forenoon of 14.09.2009 and until further orders.

MANOHAR L. VANNIAR, Dy. Secy.

No. 6/1/(1)2010-I—The President is pleased to appoint Shri Sangeet Kumar Mishra as Administrative Officer in the Space Application Centre, Ahmedabad of the Department of Space on temporary capacity with effect from the forenoon of 12.08.2009 and until further orders.

MANOHAR L. VANNIAR, Dy. Secy.

No. 6/1/(1)2010-I—The President is pleased to appoint on promotion Shri S. Venkateswara Rao as Senior Catering manager in the Space Application Centre, Ahmedabad of the Department of Space in an officiating capacity with effect from the forenoon of 14.07.2009 and until further orders.

MANOHAR L. VANNIAR, Dy. Secy.

No. 6/1/(2)2010-I—Consequent on attaining the age of Superannuation the following Scientists/Engineers in the Space Application Centre, Ahmedabad of the Department of Space have relinquished the charge of the post with effect from the afternoon of the dates mentioned against each :—

Sl. No.	Name	Post	Date of relief
	Shri/Smt./Kum.		
1.	Dr. V. K. Agarwal	Scientist/Engineer-G	31.07.2009
2.	Vitthal Laxman Gharpure	Scientist/Engineer-SF	31.07.2009
3.	S. Venkateswara Rao	Sr. Catering Manager	31.07.2009
4.	Ramesh Chandra	Scientist/Engineer-SF	31.08.2009
5.	Dr. Shashi Bhusan Sharma	Outstanding Scientist	30.09.2009
6.	P. L. Kulkarni	Scientist/Engineer-H	30.09.2009
7.	V. V. Paranjpe	Scientist/Engineer-SG	30.09.2009
8.	Chintan M. Bhatt	Scientist/Engineer-SF	30.09.2009
9.	R. L. Shah	Scientist/Engineer-SE	30.09.2009
10.	V. K. Garg	Outstanding Scientist	30.11.2009
11.	Dr. D. N. Holla	Scientist/Engineer-SG	30.11.2009

MANOHAR L. VANNIAR, Dy. Secy.

No. 6/1/(2)2010-I—The President is pleased to accept the resignation from service of the following Scientists/Engineers-SC in the Space Application Centre, Ahmedabad

of the Department of Space with effect from the afternoon of the dates mentioned against each :—

Sl. No.	Name	Date of Resignation
	Shri/Smt./Kum.	
1.	Sunita Khilar	09.10.2009
2.	Sidharth Mahotra	04.08.2008

MANOHAR L. VANNIAR, Dy. Secy.

The 19th March 2010

No. 11/1/(1)2010-I—The President is pleased to appoint on promotion Shri K. Pattabhi Rama Raju as Accounts Officer in the ISRO Office, Department of Space, Branch Secretariat, New Delhi of the Department of Space in an officiating capacity with effect from the forenoon of 10.08.2009 and until further orders.

MANOHAR L. VANNIAR, Dy. Secy.

No. 11/1/(1)2010-I—The President is pleased to appoint Shri A. K. Somasekharan as Deputy Secretary in the Department of Space, Bangalore in an officiating capacity with effect from the forenoon of 10.08.2009 and until further orders.

MANOHAR L. VANNIAR, Dy. Secy.

PLANNING COMMISSION

New Delhi, the 9th March 2010

No. A.12025/01/2005-Adm.-II—In Continuation of Planning Commission Notification of even number dated 18th September 2009, the term of ad hoc deputation period of Smt. Surekha Soni, Statistical Investigator, National Crime Records Bureau, Ministry of Home Affairs, New Delhi as Research Officer in the Pay Band-3 of Rs. 15,600—39,100/- in the Planning Commission is hereby extended till 11.09.2010 or till the post is filled on regular basis or until further orders, whichever is the earliest.

2. The ad hoc appointment will not bestow on Smt. Surekha Soni any claim for regular appointment in the grade of Research Officer and also that any service rendered by her on ad hoc basis in the grade of Research Officer would neither count for the purpose of seniority in the grade of Research Officer nor towards eligibility for promotion to the next higher grade.

N. K. SHARMA, Under Secy.

SECRETARIAT OF THE ELECTION COMMISSION OF INDIA

New Delhi-110001, the 31st March 2010

No. A-19/G-A/86/1788—In pursuance of the Ministry of Petroleum & Natural Gas reference No. C-37012/1/2010-Vig. dated 17.03.2010, Shri R. Balakrishnan, IAS[OR : 84],

Deputy Election Commissioner, is hereby relieved from the Secretariat of the Election Commission of India w.e.f. the afternoon of 31.03.2010, to enable him to join as Chief Vigilance Officer (CVO) in Chennai Petroleum Corporation Limited (CPCL), Chennai.

NARENDRA N. BUTOLIA, Under Secy

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE
(LEGISLATIVE DEPARTMENT)

New Delhi-110001, the 23rd March 2010

No. A-32014/2/2005-Admn.I (L.D.)—The President is pleased to extend the term of appointment of Shri Mohd. Hussain, Private Secretary as Confidential Superintendent in the Legislative Department of the Ministry of Law & Justice on deputation basis, in the pay band of Rs. 15,600—39,100/- plus Grade pay of Rs. 5,400, for a further period of one year (5th year) with effect from the forenoon on 30th March, 2010 or until further orders, whichever is earlier.

2. Shri Mohd. Hussain shall not be entitled to draw any Deputation (Duty) Allowance.

M. R. BEERH, Dy. Secy.

(DEPARTMENT OF LEGAL AFFAIRS)

New Delhi, the 1st April 2010

No. A-12023/31/1997-Admn.III(LA)—On attaining the age of superannuation as laid down in Rule 11 of the Income Tax Appellate Tribunal Members (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 1963, Shri Dharm Raj Singh, Judicial Member, Income Tax Appellate Tribunal has retired from service with effect from the afternoon of 15th March, 2010.

M. K. SHARMA, Jt. Secy. & Legal Adviser

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 6th April 2010

No. I-14011/6/2009-IPS-I(I)—In exercise of the provisions contained in sub-regulation (3) of Regulation 7 of the Indian Police Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955, the Union Public Service Commission has on 25-03-2010, approved the Select List of 2009, prepared by the Selection Committee in its meeting held on 31-12-2009, containing the names of the following State Police Service Officers of Karnataka, towards filling up six substantive vacancies during 2009 in the IPS Karnataka Cadre :—

SELECT LIST—2009

Sl. No.	Name of the Officers	Date of Birth
1	2	3
	(Smt./Shri)	
1.	Dr. Pawar T.D.	01-06-1959
2.	Annigeri Manjunath	15-05-1960

1	2	3
	(Smt./Shri)	
3.	Naik R.H.	24-04-1958
4.	B.R. Ravikanthe Gowda	08-04-1966
5.	R. Dileep	25-09-1970
6.	S.N. Siddaramappa	14-02-1964

2. The aforementioned Select List will be subject to the result of the O.A. No. 96/2010 pending before the Hon'ble CAT, Bangalore Bench.

O.S. ASHOK, Under Secy.

No. I-14011/6/2009-IPS-I(II)—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 9 of the Indian Police Service (Recruitment) Rules, 1954, read with sub-regulation (1) of Regulation 9 of the Indian Police Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955, the President is pleased to appoint the following members of Karnataka Police Service to the Indian Police Service on probation and to allocate them to the cadre of Karnataka under sub-rule (1) of the rule 5 of the Indian Police Service (Cadre) Rules, 1954 :—

SELECT LIST—2009

Sl. No.	Name of the Officers	Date of Birth
	(Smt./Shri)	
1.	Dr. Pawar T.D.	01-06-1959
2.	Annigeri Manjunath	15-05-1960
3.	Naik R.H.	24-04-1958
4.	B.R. Ravikanthe Gowda	08-04-1966
5.	R. Dileep	25-09-1970
6.	S.N. Siddaramappa	14-02-1964

2. The aforementioned appointments will be subject to the result of the O.A. No. 96/2010 pending before the Hon'ble CAT, Bangalore Bench.

3. The appointments will take effect from the date of issue of this notification.

O.S. ASHOK, Under Secy.

NATIONAL CRIME RECORDS BUREAU

New Delhi-110066, the March 2010

No. 34/1/2010-Ad.I(A)/NCRB.—The President is pleased to appoint Smt. B. Radhika, IPS (OR : 89), as Deputy Director (DIG) in the National Crime Records Bureau (NCRB) in Pay Band-4, (Rs. 37,400—67,000/-) with Grade Pay of Rs. 8,900/- for a period of five years from the date of her taking over the charge of the post or until further orders, whichever event takes place earlier.

N.K. SINGH, Asstt. Dir. (Admn.)

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND
PENSIONS
(DEPARTMENT OF PERSONNEL & TRAINING)

New Delhi, the 26th March 2010

No. A-13017/44/2007-AIS (I).—In exercise of the powers conferred by Rule 6(1) of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954 and with the concurrence of the Government of Uttar Pradesh and the Ministry of Home Affairs, the Central Govt. hereby accords approval for the extension of the inter cadre deputation of Shri Hari Krishna Paliwal, IAS (UP : 81) from Uttar Pradesh cadre to AGMUT cadre (Arunachal Pradesh) for a further period of three years beyond 28-02-2010 i.e upto 28-02-2013 or until further orders, whichever is earlier.

R. K. GUPTA, Under Secy.

New Delhi, the 26th March 2010

No. A-14015/17/2009-AIS (I)-(A).—In exercise of powers conferred by Rule 8(2) of the Indian Administrative Service (Recruitment) Rules, 1954 read with Regulation 8 of Indian Administrative Service (Appointment by Selection) Regulations, 1997, the President is pleased to notify the Select List of Non-State Civil Service officers of Orissa containing the following names prepared on 21-12-2009 under Regulation 5 and approved on 05-02-2010 under Regulation 7(2) towards filling up promotion quota vacancies in IAS Cadre of Orissa under Non State Civil Service category determined by the Government of India under Regulation 3 of the said Regulations in consultation with the State Government for the Select List year 2009 :—

SELECT LIST—2009

Sl. No.	Name of the Officers	Date of Birth
(Smt./Shri)		
1.	Anil Kumar Samal	15-09-2961
2.	Nityananda Palai	15-03-1956
3.	Srikanta Prusty	01-07-1964

S. S. SHUKLA, Under Secy.

The 5th April 2010

No. A-14015/24/2009-AIS (I)-(A).—In exercise of powers conferred by Rule 8(1) of the Indian Administrative Service (Recruitment) Rules, 1954, read with Regulation 9(1) of the Indian Administrative Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955, the President is pleased to notify the Select List of State Civil Service officers of West Bengal Cadre containing the following names prepared on 27th November 2009 under Regulation 5(5) and approved on 5th March 2010, under Regulation 7(2) towards filling up promotion quota vacancies in IAS Cadre of West Bengal under State Civil Service category determined by the Government of India under Regulation 5(1) of the said Regulations in

consultation with the State Government during the Select List year 2009 :—

SELECT LIST—2009

Sl. No.	Name of the Officers	Date of Birth
(Smt./Shri)		
1.	Ashok Bhattacharyya	27-01-1955
2.	Nanda Dulal Bhakat (OBC)	14-04-1956
3.	Smt. Malabika Jha	15-05-1956
4.	Akhtar Karim	15-01-1957
5.	Khalendra Mochhary (ST)	01-03-1957
6.	Subhasis Moitra	12-12-1957
7.	Rupendra Chowdhury	24-04-1958
8.	Arup Kumar Saha	21-01-1958

2. The inclusion of the above officers in the said Select List is subject to result of the Writ Petition No. 39137/2009 and 32-34/2010 & 215-222/2010 and batch pending before Hon'ble High Court of Karnataka at Bangalore.

S. S. SHUKLA, Under Secy.

No. A-14015/24/2009-AIS (I)-B.—In exercise of powers conferred by Rule 8(1) of the Indian Administrative Service (Recruitment) Rules, 1954, read with Regulation 9(1) of the Indian Administrative Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955 and Rule 3 of the Indian Administrative Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to appoint the following members of the State Civil Service of West Bengal to the Indian Administrative Service against the vacancies determined by Government of India under Regulation 5(1) of the said Regulations in consultation with the State Government for the Select List year 2009, on probation until further orders and to allocate them to West Bengal Cadre of IAS, under Rule 5(1) of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954 :—

SELECT LIST—2009

Sl. No.	Name of the Officers	Date of Birth
(Smt./Shri)		
1.	Ashok Bhattacharyya	27-01-1955
2.	Nanda Dulal Bhakat (OBC)	14-04-1956
3.	Smt. Malabika Jha	15-05-1956
4.	Akhtar Karim	15-01-1957
5.	Khalendra Mochhary (ST)	01-03-1957
6.	Subhasis Moitra	12-12-1957
7.	Rupendra Chowdhury	24-04-1958
8.	Arup Kumar Saha	21-01-1958

2. The appointment of the above officers is subject to result of the Writ Petition No. 39137/2009 and 32-34/2010 & 215-222/2010 and batch pending before Hon'ble High Court of Karnataka at Bangalore.

S. S. SHUKLA, Under Secy.

New Delhi, the 19th March 2010

No. A-32013/2/2009-Ad. I.—Consequent upon inclusion of their name in the Select Lists of Grade I Officers of Central Secretariat Service (CSS) for the year 2003 in terms of this Department's Office Memorandum No. 5/16/2007-CS.I dated 25th August, 2009, the President is pleased to appoint the following Under Secretaries of Department of Personnel and Training on regular basis with effect from the date mentioned against each :—

Sl. No.	Name of the Officers	Date of regular Appointment
1.	Shri Jagan Lal (Retired on 31-3-2007) Under Secretary (SL : 2003) (CSL No. 4354)	01-07-2003
2.	Smt. Vinod Bala Jindal (on deputation) Under Secretary (SL : 2003) (CSL No. 4366)	01-07-2003

HARISH CHANDER, Under Secy.

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

New Delhi, the 6th August 2009

No. Q/GA/576/2/2008—The Government of India has opened the following Mission :

Name of the Mission	Date/Month/Year of Opening
Embassy of India, Niamey (Niger)	01st May 2009

2. All Ministries and Departments of the Government of India, all State Governments and the Administrations of all Union Territories are requested to ensure that the correspondence to the above Mission/Post is addressed "C/o Diplomatic Bag Section, Ministry of External Affairs, South Block, New Delhi".

ALOK RANJAN JHA, Under Secy.

New Delhi, the 18th March 2010

No. 04/PB-I/2010—On attaining the age of superannuation, Shri R. K. Gupta (DOB : 14-02-1950), an officer of the Integrated Grades II & III of General Cadre of Indian Foreign Service (B) retired from Government service in the afternoon of 28-02-2010.

M. B. VERMA
Administrative Officer (PB-I & III)

No. 05/PB-III/2010—On attaining the age of superannuation, Shri G. R. Potti (DOB : 02-02-1950), an officer belonging to the Sr. PPS Grade of the Stenographer's Cadre of Indian Foreign Service (B) retired from Government service in the afternoon of 28-02-2010.

M. B. VERMA
Administrative Officer (PB-I & III)

OFFICE OF THE DEPUTY CHIEF OF PROTOCOL (F)

New Delhi, the 29th March 2010

No. D-III/460/CF-8/2010.—The President of India is pleased to recognise the appointment Mr. Nikolay Alexandrovich Listopadov as Consul General of Russian Federation in Chennai with immediate effect.

The consular jurisdiction of Mr. Nikolay Alexandrovich Listopadov comprises States of Tamil Nadu, Kerala, Karnataka, Andhra Pradesh and the Union Territory of Puducherry.

PRAKASH CHAND
Dy. Chief of Protocol (F)

MINISTRY OF FINANCE

(DEPARTMENT OF REVENUE)

New Delhi, the 17th March 2010

No. 15/2010 (F. No. A. 32014/4/2009-Ad.IA)—In pursuance of Department of Expenditure, (CAS)'s O.M. No. 32014/4/2007-CAS dated 03.03.2010, the President is pleased to extend the ad-hoc appointment to the post of PPS of the following officers for a further period upto 30.6.2010 or till regular PPS become available or till date of superannuation or until further orders, whichever is earlier :—

S/Shri/Smt

1. S. K. Gupta
2. K. N. Sharma
3. R. K. Verma
4. Krishna Kumari

ANAND UPADHYAY, Under Secy.

New Delhi, the 19th February 2010

No. 19 : (F.No. A-19013/05/2010-Ad.I) :—The President is pleased to appoint Shri Nayyar Akhtar, Assistant Works Manager of Bank Note Press, Dewas as Senior Technical Officer in PB-3 of Rs. 15,600--39,100/- with Grade Pay of Rs. 6,600/- Central Economic Intelligence Bureau of this Department w.e.f. 01.02.2010(FN).

2. The Appointment of Shri Nayyar Akhtar as Senior Technical Officer will be initially for a period of 2 years on temporary basis and during this period he will be on

probation which may be extended at the discretion of the competent authority.

V. SREEKUMAR, Under Secy.

No. 20 : (F.No. A-50/150/2008-Ad.I) :—In continuation of this Department's earlier notification No. 94 of 2009 and 98 of 2009, The President is pleased to extend the adhoc appointment of the following Assistants of Finance cadre of CSS as Section Officers (Ad-hoc) in the Department of Revenue for the period upto 30.06.2010 or till the regular Section Officers are available, whichever is earlier :—

Sl. No.	Name
1	2
	(S/Shri)
1.	Abhijit Prasad
2.	Ashok KR. Minhas
3.	Ashok Kumar
4.	Bidya Nand Lal
5.	Bimla Sharma (Mrs.)
6.	C. K. Chopra (Mrs.)
7.	C. P. Sexena
8.	H. K. Choudhary
9.	Jagdish Kumar
10.	K. B. Pratap
11.	Kumud Kapur (Mrs.)
12.	M. L. Sharma
13.	M. S. Kainth
14.	Manavendra Pratap
15.	Manjit N. P. S. Bedi
16.	Manju Chandra (Mrs.)
17.	Manjula Sharda (Mrs.)
18.	N. C. Israni
19.	N. K. Sinha
20.	N. V. Char
21.	Naresh Badhan (Mrs.)
22.	P. K. Sharma
23.	R. R. Gupta
24.	Rita Laroiya (Mrs.)
25.	S. C. Sharma
26.	S. N. Banerjee

1	2
27.	S. S. Nirwan
28.	Santosh Arora
29.	Savitri Pratap (Mrs.)
30.	Suresh Yadav
31.	Uma Khattar (Mrs.)
32.	V. K. Atwal

2. The adhoc appointment shall not confer on the appointees any right continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List of Section Officers for regular appointment or to claim seniority in the Section Officers grade of CSS.

V. SREEKUMAR, Under Secy.

No. 21 : (F.No. A-50050/19/2010-Ad.I) :—Consequent upon inclusion of his name in the Select List of Grade-I of CSS for the year 2007 and in pursuance of Department of Personnel & Training's Office Memorandum No. 5/8/2009-CS.I (U) dated 07.01.2010, the President is pleased to appoint Shri Umesh Sharma, (CSL No. 5656) a regular Section Officer of CSS as Under Secretary in the Department of Revenue on regular basis with effect from 01.07.2007 and until further orders.

2. The Seniority of the officer in the aforesaid Select List, will be in the same order in which his name appears in the Select List, irrespective of actual dates of his appointment to the Grade I Under Secretary of CSS. The appointment of the officer included in the aforesaid Select List to the grade of Under Secretary on regular basis shall be subject to the final outcome in the CWP No. 13352/2005 in the Hon'ble High Court of Delhi, O. A. No. 3294/2009 titled Shri P. R. Sharma Vs. Union of India in CAT, New Delhi; and O.A. No. 2674/2009 titled Shri P. S. Bhandari Vs. Union of India & Ors.

3. Even though the appointment of the above officer included in the aforesaid Select list shall be deemed to have been made effective from 01.07.2007 for the purpose of approved service and for fixation of his pay in the Under Secretary grade under FR 22I(a)(i) on notional basis, the actual benefits of pay fixation in the grade would, however, be available to him only from the date he has been actually working in the grade of Under Secretary of CSS.

4. Shri Umesh Sharma shall also be entitled to exercise the benefit of option for fixation of his pay as per the provisions of FR 22. However, in case he was promoted as ad-hoc Under Secretary prior to 1st July 2007 and had availed the benefit of split option, he shall not be eligible to re-exercise the option.

V. SREEKUMAR, Under Secy.

The 26th February 2010

No. 23 : (F.No. A-50050/18/2010-Ad.I)—Consequent upon inclusion of his name in the Select List of Grade-I of CSS for the year 2006 and in pursuance of Department of Personnel & Training's Office Memorandum No. 5/8/2009-CS.I (U) dated 07.01.2010, the President is pleased to appoint Shri B. Ginkhan Mang, (CSL No. 6555) a regular Section Officer of CSS as Under Secretary on regular basis with effect from 01.07.2006 and until further orders.

2. The Seniority of the officer in the aforesaid Select List, will be in the same order in which his name appears in the Select List, irrespective of actual dates of his appointment to the Grade I Under Secretary of CSS. The appointment of the officer included in the aforesaid Select List to the grade of Under Secretary on regular basis shall be subject to the final outcome in the CWP No. 13352/2005 in the Hon'ble High Court of Delhi, O. A. No. 3294/2009 titled Shri P. R. Sharma Vs. Union of India in CAT, New Delhi; and O.A. No. 2674/2009 titled Shri P. S. Bhandari Vs. Union of India & Ors.

3. Even though the appointment of the above officer included in the aforesaid Select List shall be deemed to have been made effective from 01.07.2006 for the purpose of approved service and for fixation of his pay in the Under Secretary grade under FR 22I(a)(i) on notional basis, the actual benefits of pay fixation in the grade would, however, be available to him only from the date he has been actually working in the grade of Under Secretary in the Department of Revenue i.e. w.e.f. 17.02.2010(FN).

4. Shri B. Ginkhan Mang shall also be entitled to exercise the benefit of option for fixation of his pay as per the provisions of FR 22. However, in case he was promoted as ad-hoc Under Secretary prior to 1st July 2006 and had availed the benefit of split option, he shall not be eligible to re-exercise the option.

V. SREEKUMAR, Under Secy.

The 4th March 2010

No. 24 : (F.No. A-19011/5/2010-Ad.I)—The President is pleased to appoint Ms. Radha Srivastava, IRS (IT : 72031), as Income Tax Ombudsman at Hyderabad in the HAG+ Pay scale of Rs. 75,500--80,000/- subject to the terms and conditions contained in the Income Tax Ombudsman Guidelines, 2006 for a period of 2 years with effect from 26.02.2010(FN) or until further orders, whichever is earlier.

V. SREEKUMAR, Under Secy.

The 5th March 2010

No. 25 : (F.No. A-19011/27/2009-Ad.I)—The President is pleased to appoint Shri A. K. Jain, IRS (IT : 73037), as Income Tax Ombudsman at New Delhi in the HAG+ Pay

scale of Rs. 75,500--80,000/- subject to the terms and conditions contained in the Income Tax Ombudsman Guidelines, 2006 for a period of 2 years with effect from 30.12.2009 (FN) or until further orders, whichever is earlier.

V. SREEKUMAR, Under Secy.

The 10th March 2010

No. 26 : (F.No. A-19013/7/2010-Ad.I)—The President is pleased to appoint Shri Anil Kumar Bhardwaj (IRS : IT) as Under Secretary in the Central Board of Direct Taxes of the Department of Revenue for a period of three years with effect from 02.03.2010 (FN) or until further orders, whichever is earlier.

V. SREEKUMAR, Under Secy.

No. 27 : (F.No. A-19013/29/2009-Ad.I)—The President is pleased to appoint Shri Sanjeev Behl, an officer of Central Secretariat Service as Under Secretary in this Department w.e.f. 22.10.2009 (FN) and until further orders.

V. SREEKUMAR, Under Secy.

The 15th March 2010

No. 28 : (F.No. A-19014/2/2010-Ad.I)—The President is pleased to appoint Ms. Sadhna Sharma, Senior Hindi Translator of Central Secretariat Official Language Service as Assistant Director (Official Language) in the Department of Revenue in the Pay Band 3 of Rs. 15,600—39,100/- with Grade Pay of Rs. 5,400/- on ad-hoc basis w.e.f. 11.03.2010 (FN).

2. The promotion of Ms. Sadhna Sharma, Assistant Director (OL) is purely on ad-hoc basis for a period of one year or till regular Assistant Director (OL) is available, whichever is earlier and it does not confer on her any right for fixation of seniority or regular appointment.

V. SREEKUMAR, Under Secy.

DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS

New Delhi, the 25th March 2010

No. A-12011/10/2009-Admn. II—In continuation of this Department's notification of even number dated the 19.10.2009, the President is pleased to extend the appointment of the following Stenographers Grade 'C' of Central Secretariat Stenographer Service (CSSS) of Finance Cadre, to the grade of Stenographer Grade A&B (merged) (designated as Private Secretary) of Central Secretariat Stenographer Service (CSSS) in the revised Pay Band : PB-2 {Rs. 9,300—34,800 + 4,800/- (Grade Pay)} in the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs purely on ad-hoc

basis for a period upto 30.06.2010 to till regular officers becomes available or until further orders, whichever is earlier :—

1. Shri Yogesh Kumar
2. Smt. Sarla Ajbani
3. Smt. Rita Rani
4. Smt. Neelaxi
5. Shri Rakesh Kumar Sood
6. Smt. Latha Ramachandaran
7. Shri Sanjeev Kumar Sharma
8. Shri Abdul Wahid
9. Shri Ashok Kumar Verma

2. The ad-hoc appointments of the above Stenographers Grade 'C' as Stenographer Grade 'A&B' (merged) (designated as PS) will be subject to the following terms and conditions :—

(a) The ad-hoc appointment shall not confer on the appointees any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Grade 'A&B' (merged) (P.S.) of CSSS;

(b) Ad-hoc appointments may be terminated at any point of time without giving any reason therefor.

V. RAMKUMAR, Under Secy.

DEPARTMENT OF EXPENDITURE

New Delhi, the 26th March 2010

No. A-12026/3/2008-Ad.I—In continuation of this Department's notification of even number dated 23.9.2009, the tenure of deputation of Shri Alok Saxena, IPoS (89) in the post of Director in the Pay Band of Rs. 37,400—67,000/- (PB-4) + Rs. 10,000/- (Grade Pay) in the Implementation Cell of the Ministry of Finance, Department of Expenditure is extended further with effect from the forenoon of the 1st April, 2010 for a period upto the afternoon of the 7th May, 2010 or until further orders, whichever is earlier.

MEETALI GHOSH, Under Secy.

New Delhi, the 31st March 2010

No. A-12026/3/2003-Ad.I—The President is pleased to appoint Shri Anand Singh Parmar, Economic Officer in the Commission for Agriculture Costs and Prices as Assistant Director in the Ministry of Finance, Department of Expenditure in the Pay Band of Rs. 15,600—39,100/- (PB-3) + Rs. 5,400/- (Grade Pay) on deputation basis with effect from the forenoon of the 29th March, 2010 initially for a period upto the forenoon of the 15th April, 2011 or until further orders, whichever event takes place earlier.

B. S. SAMKRIA, Under Secy.

MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY (DEPARTMENT OF COMMERCE)

New Delhi, the 9th March 2010

No. (A-19011/10/2009-E.I.)—The President is pleased to appoint Shri Ashish Kundra, IAS (AGMUT : 96), as Private Secretary to the Minister of Commerce and Industry (Shri Anand Sharma), at the level of Director, as a measure personal to him, in the Department of Commerce, Ministry of Commerce & Industry w.e.f. 01.07.2010. There will be no change in his approved tenure as Private Secretary to the Minister, which is upto 09.04.2014.

AUNRAG SAXENA, Director

DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE

New Delhi, the 29th March 2010

No. 7/2010 (F. No. 6/2404/2006/HRD-I/1132)—On attaining the age of superannuation Shri Kartar Singh, FTDO, (CSS) in this Office will retire from Government service with effect from 31.3.2010 (AN).

G. PARTHASARATHY, Dy. Dir. Genl. of Foreign Trade

DEPARTMENT OF INDUSTRIAL POLICY & PROMOTION

New Delhi, the 25th March 2010

No. 7/3/2008-E-IV—The President is pleased to appoint Shri Jamini Kumar Sharma, IAS (MP : 75) as Member Secretary, Tariff Commission in the Department of Industrial Policy & Promotion in the rank and pay of Secretary to the Government of India with effect from 18.3.2010 (FN).

D. K. SHARMA, Under Secy.

The 30th March 2010

No. 7/2/2005-CDN/E-IV—The President is pleased to appoint Shri Y. V. Telang, Industrial Adviser (S&T), Tariff Commission as Chief Adviser (S&T), Tariff Commission, Department of Industrial Policy & Promotion in the pay scale of Rs. 37,400—67,000/- (PB-4) + Rs. 10,000/- (Grade Pay) with effect from 18.3.2010 (FN).

D. K. SHARMA, Under Secy.

MINISTRY OF TEXTILES

New Delhi, the 18th March 2010

No. 5/2010 (A-19011/2/2004-Estt.)—Shri Jamini Kumar Sharma, IAS (MP : 75) stands relieved from the Ministry of Textiles with effect from the forenoon of 18th March, 2010, consequent on his appointment as Member Secretary, Tariff Commission under the Department of Industrial Policy and Promotion, Ministry of Commerce and Industry.

BALBIR SINGH, Under Secy.

The 22nd March 2010

No. 7/2010 (A-12022/10/2000-Estt.—The President is pleased to appoint Shri V. Srinivas, IAS (RJ : 89), as Joint Secretary in the Ministry of Textiles, in the Pay Band of Rs. 37,400—67,000/- (PB : 4) plus Grade Pay of Rs. 10,000/- for a period of 5 years with effect from the forenoon of 22nd March, 2010 or until further orders, whichever event takes place earlier.

BALBIR SINGH, Under Secy.

MINISTRY OF PETROLEUM & NATURAL GAS

New Delhi, the 3rd March 2010

No. A-12011/1/2007[A]-Estt.—In terms of Department of Personnel & Training's O.M. No. 5/6/2007-CS.II dated 12.02.2010, the President is pleased to further extend the terms of ad-hoc appointment of following Principal Private Secretary upto 30.06.2010 or till regular PPS become available or till date of superannuation or until further orders, whichever is earlier.

1. Shri S. C. Batra
2. Shri S. Sreekumar

2. The continuation of ad-hoc appointment of the above mentioned officers is purely on ad-hoc basis and shall not confer on them any right to continue in the grade indefinitely or to claim seniority in the grade of PPS of CSSS.

ARUNODAY GOSWAMI, Under Secy.

The 30th March 2010

No. A-19011/12/2005-Estt.—On completion of his Central Deputation tenure, Shri V. K. Dewangan, IAS [MT : 93], Director in the Ministry of Petroleum & Natural Gas is relieved of his duties in the Ministry w.e.f. the afternoon of 3rd April, 2010 and his services are placed at the disposal of the State Government of Manipur.

ARUNODAY GOSWAMI, Under Secy.

MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES & PUBLIC ENTERPRISES (DEPARTMENT OF HEAVY INDUSTRY)

New Delhi-110011, the 31st March 2010

No. A.19011/10/2006-Admn.—The President is pleased to allow Smt. Sukh Versha Malik, Section Officer, Department of Heavy Industry, Ministry of Heavy Industries & Public Enterprises to retire from Government Service with effect from the afternoon of 31st March, 2010 on attaining the age of superannuation.

L. C. RAM, Under Secy.

No. A.19011/4/2008-Admn.—The President is pleased to allow Dr. Satyanarayana Dash, IAS (KL : 73), Secretary, Department of Heavy Industry, Ministry of Heavy Industries & Public Enterprises to retire from Government Service with

effect from the afternoon of 31st March, 2010 on attaining the age of superannuation.

L. C. RAM, Under Secy.

The 1st April 2010

No. A.19011/3/2010-Admn.—The President is pleased to appoint Shri. B. S. Meena, IAS (MH : 75) as Secretary, Department of Heavy Industry, Ministry of Heavy Industries & Public Enterprises with effect from the forenoon of 1st April, 2010.

L. C. RAM, Under Secy.

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD & PUBLIC DISTRIBUTION (DEPARTMENT OF FOOD & PUBLIC DISTRIBUTION)

New Delhi, the 25th March 2010

No. A-11011/1/2004-E.I.—The President is pleased to appoint Shri Rakesh Garg, IAS (UP : 80) as Joint Secretary in the Department of Food & Public Distribution w.e.f. the forenoon of 22nd March, 2010 in the Pay Band (PB-4) 37,400—67,000/- plus Grade Pay of Rs. 10,000/- for the period upto 6.3.2012 or until further orders, whichever event takes place earlier.

B. B. SHARMA, Under Secy.

The 26th March 2010

No. A-12022/1/2009-E.I.—The President is pleased to appoint Shri Villa Mangapathi Rao, IAS (88) as Director in the Department of Food & Public Distribution w.e.f. the forenoon of 25th March, 2010 in the Pay Band (PB-4) 37,400—67,000/- plus Grade Pay of Rs. 8,700/- for the period of five years or until further orders, whichever event takes place earlier.

B. B. SHARMA, Under Secy.

MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY (DEPARTMENT OF SCIENTIFIC AND INDUSTRIAL RESEARCH)

New Delhi-110016, the 31st March 2010

No. A-38018/04/2009-Estt.—On attaining the age of superannuation Shri Madhu Sudan Chopra, Director, Department of Scientific and Industrial Research stands retired from the Government Service with effect from the afternoon of 31st March, 2010.

S. K. KALRA, Under Secy.

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

New Delhi-110003, the 24th February 2010

No. 17013/26/2008-IFS.II.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of Rule 8 of the Indian Forest Service

(Recruitment) Rules, 1966, read with Sub-regulation (1) of Regulation 9 of the Indian Forest Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1966, the President is pleased to appoint with immediate effect, the following officers of the State Forest Service of Haryana to the Indian Forest Service on the basis of Select Lists indicated against their names respectively and allocate them to Haryana cadre of Indian Forest Service under Sub-rule (1) of Rule 5 of the Indian Forest Service (Cadre) Rules, 1966 :—

Select List of 2005

Sl. No.	Name of the officer	Date of Birth
1.	Shri I. P. Singh	02.09.1952
2.	Shri Bhagwan Singh	05.03.1952

Select List of 2007

1.	Shri Vijender Singh Kadian	19.11.1953
----	----------------------------	------------

VIVEK SAXENA, Director

No. 25012/1/2010-IFS-II—The President is pleased to permit Dr. Ajay Kumar, an IFS officer of 1986 batch of Manipur-Tripura Cadre, to retire from service voluntarily with effect from the afternoon of 1st April, 2010 in accordance with Rule 16(2A) of the All India Services (Death-cum-Retirement Benefits) Rules, 1958.

VIVEK SAXENA, Director

New Delhi-110 510, the 5th January 2009

No. 22012/74/2005-IFS-II—In supersession of this Ministry's Notification of even number dated 17th November, 2008 and in exercise of provisions contained in Sub-Regulation 3 of Regulation 7 of the Indian Forest Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1966, a meeting of the Selection Committee for preparation of Select List for promotion from the State Forest Service of Uttar Pradesh to the Indian Forest Service for the year 1990 was held on 19th June, 2008 in accordance with the direction dated 25.09.2007 in O.A. No. 2616/2005 of the Hon'ble Central Administrative Tribunal Principal Bench, New Delhi. The Union Public Service Commission has approved the Select List prepared in the said meeting containing the name of the following one member of the State Forest Service of Uttar Pradesh towards filling up of promotion vacancies available in Uttar Pradesh Cadre of the Indian Forest Service :

Name of Officer	Date of Birth
Shri Rajiv Asthana	03.07.1955

JOSEPH LUIKHAM, Under Secy.

The 5th March 2009

No. 22012/26/2002-IFS. II—In exercise of powers conferred by Rule 5 of the Indian Forest Service (Cadre) Rules, 1966, read with sub-section (4) of section 72 of the Uttar Pradesh Reorganization Act, 2000 the Central Government, based on the Corrected Order dated 06.12.2006 passed by High Court of Uttarakhand at Nainital on Writ Petition No. 41 of 2005, and the Order passed by the Supreme Court of India dated 25.07.2008 on the Special Leave Petition No. 9544-9545/2008, hereby allocates Sri Vineet Kumar Pangety, I.F.S. (1988 : RR) to Uttarakhand Cadre with effect on and from 09th November 2000. The inter-se-seniority of officers of 1988:RR Batch will continue to be governed as per notification No. F. No. 18014/22(DR)/97-IFS-II dated 30 December 1997.

JOSEPH LUIKHAM, Under Secy.

The 18th May 2009

No. 17015/01/2006-IFS-II—In exercise of the powers conferred by sub-rule(1) of Rule 5 of the Indian Forest Service (Cadre) Rules 1966, the Central Government, in consultation with the State Government concerned, allocated the State Cadres to the officers of the Indian Forest Service Examination, 2005 vide Notification of even number dated 13th June, 2008.

2. The following Officers which were allocated the Joint Cadre of Assam-Meghalaya & Manipur-Tripura are hereby allocated the States indicated against their names :—

S. No.	Name of the Officer	Joint Cadre allocated vide notification dated 13.06.2008	State Cadre to which allocated
1.	Murthi B.N.N.	Assam-Meghalaya	Assam
2.	Manjunatha C	Assam-Meghalaya	Meghalaya
3.	Gaithaolu Thaimel	Manipur-Tripura	Manipur

JOSEPH LUIKHAM, Under Secy. (IFS)

The 13th July 2009

No. 17013/12/2008-IFS-II—In exercise of the provisions contained in Sub-Regulation 3 of Regulation 7 of the Indian Forest Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1966, a meeting of the Selection Committee for preparation of Select List for promotion from the State Forest Service of West Bengal to the Indian Forest Service for the year 2008 was held on 30th December, 2008. The Union Public Service Commission has approved the Select List prepared in the said meeting containing the name of following officers of the State Forest Service of West Bengal towards filling up of promotion quota vacancies available in West Bengal cadre of the Indian Forest Service.

Select List 2008

Sl. No.	Name of Officer	Date of Birth
1.	Shri Ajoy Kumar Das	01.03.1965
2.	Shri Samir Gajamer	18.09.1966

JOSEPH LUIKHAM, Under Secy.

The 29th October 2009

No. 17013/06/2008-IFS-II—In exercise of the powers conferred by Rule 3(3)(ii) & Rule 4 of Indian Forest Service (Regulation of Seniority) Rules, 1997, the Central Government hereby determine the Year of Allotment/Seniority of undermentioned two(2) Indian Forest Service Officers, borne on the Karnataka Cadre of Indian Forests Service as under :—

S. No. the officer	Name of the officer	Select List Year	Date of appointment in SFS	Completed years of service as on 31/12/07	Total weightage (1 year for every 3 years) age	Year of Allotment as per weight-	Place-ment
1.	(S/Shri) Devaraj N.	2008	3.3.1990	17 Years	5	2003	Below Prachi Gangwar RR (2003 Batch)
2.	Prakash S. Netalkar	2008	3.3.1990	17 Years	5	2003	Below Shri Devaraj N.

JOSEPH LUIKHAM, Under Secy.

The 3rd December 2009

No. 17013/25/2007-IFS.II—In exercise of the powers conferred by Rule 3(3)(ii) & Rule 4 of Indian Forest Service (Regulation of Seniority) Rules, 1997, the Central Government hereby determine the Year of Allotment/Seniority of undermentioned two(2) Indian Forest Service Officers, borne on the Jharkhand Cadre of Indian Forests Service as under :—

S. No. the officer	Name of the officer	Select List Year	Date of appointment in SFS	Completed years of service as on 31/12/07	Total weightage (1 year for every 3 years) age	Year of Allotment as per weight-	Place-ment
1.	Sh. Amar Nath Prasad Singh	2006	21.12.87	20 Years	6	2000	Below Shri Ajit Kumar Singh IFS 2000
2.	Sh. Binay Kumar Pal	2006	21.12.87	20 Years	6	2000	Below Shri Amar Nath Prasad Singh

JOSEPH LUIKHAM, Under Secy.

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

New Delhi-110003, the 31st March 2009

No. 17013/27/2008-IFS. II—In exercise of the provisions contained in Sub-Regulation 3 of Regulation 7 of the Indian Forest Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1966, the Union Public Service Commission has approved the Select List for promotion from State Forest Service of Himachal Pradesh to the Indian Forest Service for the year 2008 prepared in the Selection Committee meeting held on 31.12.2008 containing the name of following two officers of the State Forest Service of Himachal Pradesh towards filling up of promotion quota vacancies available in Himachal Pradesh cadre of the Indian Forest Service :—

S. No.	Name of the officer	Date of Birth
1.	Shri Anil Kumar Sharma	10.04.1965
2.	Shri Ajit Kumar Thakur	24.01.1965

C. M. SHARMA, Under Secy.

The 8th March 2010

No. 17013/07/2008-IFS. II—In exercise of the powers conferred by Sub-rule (1) of Rule 8 of the Indian Forest Service (Recruitment) Rules, 1966, read with Sub-regulation (1) of Regulation 9 of the Indian Forest Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1966, the President is pleased to appoint with immediate effect, the following officers of the State Forest Service of Sikkim to the Indian Forest Service on the basis of Select Lists indicated against their names respectively and allocate them to Sikkim cadre of Indian Forest Service under Sub-rule (1) of Rule 5 of the Indian Forest Service (Cadre) Rules, 1966 :—

Select List of 2006

S. No.	Name of the officer	Date of Birth
	S/Shri	
1.	B. K. Tewari	12.11.1933
2.	Gut Lepcha	04.08.1952
3.	B. P. Pradhan	20.01.1964

Select List of 2008

S. No.	Name of the officer	Date of Birth
	S/Shri	
1.	B. S. Siktel	04.01.1960
2.	Y. P. Gurung	08.01.1961

C. M. SHARMA, Under Secy.

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE
(DEPARTMENT OF HEALTH)

New Delhi-110108, the 5th April 2010

No. A.-12025/184/2007-CHS.I—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Durgesh to the Medical Officers Grade of the Central Health Service in the scale of pay of Rs. 15,600—39,100/- + 5,400/- Grade Pay in a temporary capacity with effect from afternoon of the 23.3.2009 until further orders. Dr. Durgesh is posted as Medical Officer under Dr. Ram Manohar Lohia Hospital, New Delhi until further orders. Dr. Durgesh shall be on probation for two years from the date of appointment.

MAYA PRAKASH, Under Secy.

DEPARTMENT OF HEALTH & FW

New Delhi, the 16th March 2010

No. A-32013/03/09-E.I—Consequent upon inclusion of her name in the Select List for the year 2006 for appointment to the Grade-I (Under Secretary) of CSS vide DoPT's OM No. 5/8/2009-CS.I(U) dated 07.01.2010, Smt. Veena Verma, Section Officer of the CSS (CSL No. 4896) is appointed to Grade-I of the Central Sectt. Service (Under Secretary) on regular basis w.e.f. 09.03.2010 (FN).

2. The appointment of Smt. Veena Verma shall be deemed to be effective from 01.07.2006 for the purpose of approved service and for fixation of pay as Under Secretary on notional basis.

3. The appointment is subject to final outcome in the CWP No. 13352/2005 in High Court of Delhi; OA No. 3294/2009 titled Sh. P. R. Sharma Vs. UoI in CAT, New Delhi; and OA No. 2674/2009 titled Sh. P. S. Bhandari Vs. UoI & Ors.

ANIL UNİYAL, Under Secy.

MINISTRY OF AGRICULTURE

(DEPARTMENT OF AGRICULTURE & COOPERATION)

New Delhi, the 26th February 2010

No. 38012/07/2009-Estt.I—Shri T. Nanda Kumar, I.A.S. (JH : 72), Secretary, Department of Agriculture and Cooperation will retire from Government Service with effect from the afternoon of 28th February, 2010 on attaining the age of superannuation.

P. VIJAY KUMAR, Under Secy.

The 31st March 2010

No. 38012/01/2010-Estt.I—Shri Dilip Kumar Roy, Under Secretary (CSL No. 4323) in the Department of Agriculture and Cooperation will retire from Government Service with effect from the afternoon of 31st March, 2010 on attaining the age of superannuation.

P. VIJAY KUMAR, Under Secy.

DEPARTMENT OF ANIMAL HUSBANDRY, DAIRYING
AND FISHERIES

(CENTRAL INSTITUTE OF FISHERIES NAUTICAL &
ENGINEERING TRAINING)

Cochin-16, the 7th November 2009

Sub : Un-authorised absence of Shri G. Renjith, Gear Technician [redesignated as Technical Assistant (Fishing Technology)]—Termination of service under Rule 5 of CCS (Temporary Service Rules) 1965—reg.

Ref : 1. This Office O.M. No. 6-12/2007 Adm. dated 24.09.2007, 08.10.2007, 02.11.2007, 09.01.2008, 06.02.2008, 04.04.2008 and 01.07.2008

2. Notice of Termination published in the Gazette of India on 30.5.2009.

No. 6-12/2007-Adm.—Shri G. Renjith, Gear Technician [redesignated as Technical Assistant (Fishing Technology)] of this Institute has not responded to the above quoted Memos and he is still absent from duty. In pursuance of the Priviso to Sub-rule (1) of Rule 5 of the Central Civil Services (Temporary Service) Rules, 1965, the Services of Shri G. Renjith, Gear Technician [redesignated as Technical Assistant (Fishing Technology)] are therefore terminated with effect from the forenoon of 30.06.2009 as per the terms of Notice of termination dated 05.08.2008 published in the Gazette of India on 30.05.2009. He is deemed to have severed all connections with this Institute with effect from the date of termination of his services.

C. RETHINADHAS, Dir.

To

Shri Renjith. G.
TC-13/1415, Charuvilakathu Veedu,
Burma Road, Kumarapuram,
Triuvandrum-11

MINISTRY OF MINORITY AFFAIRS

New Delhi-110003, the 30th March 2010

No. A-12035/1/2010-Estt.—In pursuance of Appointments Committee of the Cabinet, Department of Personnel & Training's O.M. No. 4/5/2010-EO(MM-I) dated 25th March, 2010 and Ministry of Home Affairs' O.M. No. 1-21016/30/2005-IPS-III dated 30th March, 2010 approving ex-post facto her appointment as Officer on Special Duty (OSD) w.e.f. 19/2/2010 (A/N), the President is pleased to appoint Ms. Nuzhat Hassan, IPS (AGMU : 91) as OSD to the Minister of State (I/C) for Minority Affairs (Shri Salman Khurshid) at the level of Director in the Ministry of Minority Affairs in PB-4 [Rs. 37,400—67,000/- plus Grade Pay of Rs. 8,700/-] with effect from 19.02.2010 (A/N) for a period upto 20.02.2012 on co-terminus basis or till she ceases to function as OSD to the Minister or until further orders, whichever event occurs the earliest.

GOPAL DASS, Dy. Secy.

MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS

New Delhi, the 15th March 2010

No. 11013/2/2009-Estt.—The President is pleased to appoint Shri Asit Gopal, IFS (MP : 90) as Director in the Ministry of Tribal Affairs with effect from the forenoon of 26.02.2010 for a period of five years or until further orders, whichever event takes place earlier.

A. K. SAHA, Under Secy.

 MINISTRY OF COMMUNICATIONS & IT
 (DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS)

New Delhi-110001, the 22nd March 2010

No. 100-42/2009-STG-I—Shri B. Gopal (Staff No. 8380), an officer of Senior Administrative Grade of Indian Telecommunications Service Group 'A', who was working as General Manager in A. P. Telecom. Circle of Bharat Sanchar Nigam Ltd., expired on 23.10.2009.

B. M. DAVID, Under Secy.

No. 100-42/2009-STG-I—Shri A. Ganesan (Staff No. 8351), an officer of Senior Administrative Grade of Indian Telecommunications Service Group 'A', who was working as General Manager in Tamilnadu Telecom. Circle of Bharat Sanchar Nigam Ltd., expired on 25.12.2009.

B. M. DAVID, Under Secy.

DEPARTMENT OF INFORMATION TECHNOLOGY

New Delhi-110003, the 1st April 2010

No. 3(13)/2009-P.I.—On the basis of the results of Limited Departmental Competitive Examination, 2009 for promotion to the post of Section Officer, Secretary, Department of Information Technology hereby appoints the following officers (in-situ/personal) on promotion as Section Officer, on regular basis, in the Pay Band-2, Rs. 9,300—34,800/- with Grade Pay of Rs. 4,800/- in the Department of Information Technology with effect from the afternoon of 31.03.2010 :—

- | | |
|-----------------------------|------------------|
| (i) Sh. Sanjit Choudhury | (E. Code : 0895) |
| (ii) Sh. Mohinder Pal Singh | (E. Code : 0549) |
| (iii) Sh. Gyarsi Ram Meena | (E. Code : 0343) |
| (iv) Sh. Dinesh Kumar Sagar | (E. Code : 0479) |

R. K. MANCHANDA, Jt. Dir.

NATIONAL INFORMATICS CENTRE

New Delhi-110003, the 31st March 2010

No. NIC/PF/332/2009-Adm.I—Shri Vir Singh, Scientist "D" (Emp. Code : 332), National Informatics Centre, New Delhi is retiring on superannuation from Government Service with

effect from the afternoon of 31st March, 2010 and he is relieved of his duties from the same day.

R. M. NAIR, Dy. Dir (Adm.I)

MINISTRY OF RAILWAYS

(RAILWAY BOARD)

New Delhi, the 17th March 2010

No. E(GP)/2008/3/5—The President is pleased to appoint the undermentioned 27 Group 'B' officers of Personnel Department of Indian Railways, to Group 'A'/Jr. Scale of Indian Railway Personnel Service (IRPS) with effect from 30.02.2010 on the Railways mentioned below :—

PANEL FOR 2009-10

Names of the officers

Central Railway

S/Shri

1. R. B. Barkade

2. D. V. Deoghare (ST) Promoted against ST vacancy

East Coast Railway

P. Narayana Rao

Eastern Railway

T. C. Mukherjee

North Central Railway

A. K. Sinha

North Eastern Railway

1. L. N. R. Tripathi

2. S. D. Dubey

3. Ram Kamal

4. G. J. Sinha

Northeast Frontier Railway

1. S. Chakraborty

2. A. Chakraborty

3. Ashok Sen Gupta

Northern Railway

1. Harsh Vardhan Nangal

2. Arun Sharma

3. Om Prakash (SC) Promoted against SC vacancy

4. Ram Krishan (SC) Promoted against SC vacancy

North Western Railway

1. Rajendra Mohan Gaur

2. Raju Singh Parihar (SC) Promoted against SC vacancy

Southern Railway

S/Shri

1. C. S. Umakanth
2. S. Adaikalam
3. R. K. Mohan Narayanan
4. P. Abraham Jacob
5. C. R. Sundaresh (Belongs to RWF)

South Western Railway

S. Srinivasa Raghavan

West Central Railway

R. D. Sharma

Western Railway

1. O. P. Pathak

2. U. V. Patel (ST) Promoted against ST vacancy

SHIVAJI RAKSHIT, Secy.
(Railway Board)

No. E(GP)/2005/1/55—The President is pleased to appoint the undermentioned Group 'B' officers of S&T Department of Indian Railways, to Group 'A'/Jr. Scale of Indian Railway Service of Signal Engineers (IRSSE) with effect from 29.05.2009, on the Railways mentioned below :—

Names of the officers

Central Railway

PANEL FOR 2007-08

1. Shri P. R. Patankar

PANEL FOR 2008-09

1. Shri B. K. Neela

Accordingly, the appointment of Shri P.R. Patankar to Group 'A'/Jr. Scale of IRSSE w.e.f. 29.05.2009 against the panel of Central Railway for the vacancy year 2008-09 issued earlier vide notification of even number dated 19.08.2009, is hereby cancelled.

Names of the officers

Northern Railway

PANEL FOR 2006-07

Shri A. L. Sharma

PANEL FOR 2007-08

Shri H. K. Sharma

PANEL FOR 2008-09

Shri A. K. Sharma

Accordingly, the appointment of S/Shri A. L. Sharma and H. K. Sharma to Group 'A'/Jr. Scale of IRSSE w.e.f. 29.05.2009

against the panel of Northern Railway for the vacancy years 2007-08 and 2008-09 respectively, issued earlier vide notification of even number dated 17.7.2009, is hereby cancelled.

Names of the officers

North Eastern Railway

PANEL FOR 2008-09

S/Shri

1. R. S. Tripathi
2. A. K. Gupta
3. J. N. Gupta

SHIVAJI RAKSHIT, Secy.
(Railway Board)

The 25th March 2010

No. E(GP)/2008/3/5—The President is pleased to appoint the undermentioned Group 'B' officer of Personnel Department of Indian Railways, to Group 'A'/Jr. Scale of Indian Railway Personnel Service (IRPS) with effect from 03.02.2010 on the Railway mentioned as below :—

PANEL FOR 2009-10

Name of the officer

South Eastern Railway

Shri S. C. Biswas (SC) Promoted against SC vacancy

SHIVAJI RAKSHIT, Secy.
(Railway Board)

The 26th March 2010

No. E(GP)/2006/3/4—The President is pleased to appoint the undermentioned Group 'B' officer of Mechanical Engg. Department of Indian Railways, to Group 'A'/Jr. Scale of Indian Railway Service of Mechanical Engineers (IRSME) with effect from 20.03.2009, on the Railway mentioned below :—

PANEL FOR 2007-08

I.C.F.

Name of the officer

Shri P. Sivaraman (SC) Promoted against SC vacancy

SHIVAJI RAKSHIT, Secy.
(Railway Board)

The 31st March 2010

No. ERB-I/2010/2/16—The President is pleased to appoint Shri A. K. Maitra, SAG/IRTS, Eastern Railway as Advisor (Vigilance), Railway Board on promotion to HA Grade in pay

scale of Rs. 67,000—79,000/- with effect from forenoon of 03.03.2010.

SHIVAJI RAKSHIT, Secy.
(Railway Board)

MINISTRY OF POWER

New Delhi, the 31st March 2010

No. 14/1/2007-DVC—In continuation to this Ministry's Office Order of even number 27th March, 2009 extending the additional charge of the post of Chairman, Damodar Valley Corporation (DVC) to Shri G. B. Pradhan, Additional Secretary, Ministry of Power, with effect from 1st March, 2009 to 30th June, 2009, ex-post facto approval of the competent authority, for continuation of additional charge of the post of Chairman, DVC entrusted to Shri G. B. Pradhan, Additional Secretary, Ministry of Power is hereby accorded beyond 30.06.2009 and upto 13.10.2009 i.e. till the date regular incumbent took charge of the post.

PUNEET K. GOEL, Dir. (Thermal)

New Delhi, the 5th April 2010

No. 11/2010 (F. No. A-38012/1/2008-Adm. I)—The President is pleased to appoint Shri Nitin Prakash in the grade of Assistant Director Grade-I/Assistant Executive Engineer of the Central Power Engineering (Group A) Service, in the Central Electricity Authority, with effect from the forenoon of 22nd March, 2010, until further orders.

2. Shri Nitin Prakash will be on probation for a period of two years.

N. SRIRAMAN, Under Secy.

MINISTRY OF WATER RESOURCES

New Delhi, the 11th March 2010

No. 04/2010 (F. No. 2/8/2009-Admn.)—The President is pleased to appoint Shri V. S. Dharma Kumar, as Additional Private Secretary to the Minister of Parliamentary Affairs & Water Resources (Shri Pawan Kumar Bansal) in the Pay Band-3 i.e. Rs. 15,600—39,100/- + 6,600/- (Grade Pay) with effect from the forenoon of 18-6-2009 on co-terminus basis or till he ceases to function as Additional Private Secretary to the Minister or until further orders, whichever event takes place at the earliest.

N. K. GUPTA, Under Secy.

New Delhi, the 31st March 2010

No. 7/7/2009-CGWB—The President is pleased to appoint Shri J. N. Sharma, Assistant Executive Engineer as Executive Engineer on promotion in the scale of pay in PB-3, Rs. 15,600—39,100/- + GP. Rs. 6,600/- in Central Ground Water Board with effect from 18.01.2010.

M. N. SUKUMARAN, Under Secy.

MINISTRY OF LABOUR & EMPLOYMENT

New Delhi-110001, the 30th March 2010

No. A-19011/22/2007-Adm.-I.—The President is pleased to appoint Shri Shakya Kumar an officer in the Private Secretary Grade of CSSS as Principal Private Secretary in the Ministry of Labour & Employment on regular basis on inclusion of his name in the Select List Year of 2005 of Principal Private Secretary.

PRADEEP GAUR, Under Secy.